

December 13, 2025

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001
BSE Scrip Code: 543954

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051
NSE Symbol: ATL

#### Subject: Post- Issue Advertisement regarding the Rights issue of the Company

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed the extracts of the newspaper advertisements issued and published today, i.e., Saturday, December 13, 2025, in respect of the matters as specified under Regulation 92(1) of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"). The advertisements were duly published in the following newspapers: -

- 1. Financial Express all editions (English) Mumbai and New Delhi Edition (attached).
- 2. Jansatta all editions (Hindi) Lucknow and Kolkata Edition (attached).
- 3. Mumbai edition Lakshdeep (Marathi)

The above information is also available on the Company's website at www.allcargoterminals.com.

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Allcargo Terminals Limited

Malav Talati Company Secretary & Compliance Officer Membership No: A59947

Place: Mumbai

Encl:- a/a

REGISTRAR

## **FINANCIAL EXPRESS**

## Continue From Previous Page...

E.Allocation to QIBs Category- Mutual Fund and other (Excluding Anchor Investor) (After Rejections): The Basis of Allotment to the Qualified Institutional Buyers (Excluding Anchor Investor), at the Offer price of ₹ 138/- per Equity Share, was finalized in consultation with BRLM. The category received 3 applications for 5.03.000 Equity Charge. The total number of charge allotted in this category is 3.72.000 Equity Charge to 3 supposeful

2,35,000

1,37,000

	The details of the Bas				ottod iii tilio odti	ogory 15 0,7 2,00	oo Equity Ona	100 10 0 0000000
Category	FIS/BANKS	MF's	IC's	NBFC's	AIF	FPC	VC's	Total

F.Allocation to Anchor Investor (After Rejection): The Company and Selling Shareholders in consultation with BRLM allotted 5,58,000 Equity Shares to 2 (Two) Anchor Investor at an Offer Price of ₹ 138/- per share in accordance with SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

Category	FIS/BANKS	MF's	VCF	NBFC's	AIF	FPI	Others	Total
Anchor	ō	188	- 1	1570	2,18,000	3,40,000	182	5,58,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on December 11, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation have been mailed to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched / mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account before December 12, 2025. In case the same is not received within ten days. Investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on December 12, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE and the trading of the Equity Shares is expected to commence trading on December 15, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated December 10, 2025 filed with the Registrar of Companies, Mumbai ("RoC").

## **INVESTORS, PLEASE NOTE**

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Offer, MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) at www.in.mpms.mufg.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:



## MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED

(Formerly Link Intime India Private Limited)

Address: C-101, 247 Park, 1st Floor, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083, (Maharashtra), India

Telephone: +91 810 811 4949

Email: prodocssolutions.smeipo@in.mpms.mufg.com

Investor Grievance Email: prodocssolutions.smeipo@in.mpms.mufg.com

Contact Person: Shanti Gopalkrishnan Website: www.in.mpms.mufg.com SEBI Registration Number: INR000004058 CIN: U67190MH1999PTC118368

For Prodocs Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors Sd/-

> Nidhi Parth Sheth **Managing Director** DIN: 08386886

3.72.000

Date: December 12, 2025

Place: Mumbai

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF PRODOCS SOLUTIONS LIMITED.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have same meanings assigned to them in the Prospectus.

Disclaimer: Prodocs Solutions Limited has filed the Prospectus with ROC on December 10, 2025, and thereafter with SEBI and Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of BRLM, Cumulative Capital Private Limited at www.cumulativecapital.group. Investors should note that investment in Equity Shares involve a high degree of risk and for details relating to the same. please see "Risk Factor" beginning on page 31 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under U.S. Securities Act of 1993, as amended ("the Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulations under Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales were made. There will be no public offering in the United States.



Regd. Office: A-82, MIDC Industrial Estate, Indapur, Pune – 413132, Maharashtra Email: compliance@modulex.in; Website: www.modulex.in; Tel: 02111-299200

CORRIGENDUM TO POSTAL BALLOT NOTICE WHICH IS SCHEDULED TO HELD ON 17<sup>TH</sup> DECEMBER, 2025 This Corrigendum is being issued in connection to the Postal Ballot Notice dated 14th November, 2025 which has been sent to all the shareholders on 17th November, 2025. The following

alterations/modifications in the Notice are hereby notified through this corrigendum to all the shareholders: Notice of Postal ballot removes Proposed Allottee In accordance with Regulation 159(1) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, which specifies that a preferential issue of specified securities cannot be made to any person who has sold or

transferred any equity shares, it has come to our attention that the proposed allottee, Mr. Prafulchandra Yahwantrai Mehta, is ineligible for the preferential issue Therefore, we have decided to remove the name of Mr. Prafulchandra Yahwantrai Mehta. The changes will be reflected throughout the relevant sections of the Notice and related documents

This change will be effective immediately. The corrections are marked with the symbol ' $^{\prime\prime}$ ' at the relevant places below. The issue and allot upto ^18,68,512 Equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each at a price of Rs. 25/- (Rupees Twenty-Five Only) per share, aggregating to not exceeding ^Rs. 4,67,12,800/-

(Rupees Four Crores Sixty-Seven Lakhs Twelve Thousand Eight Hundred Only) and MCTL will acquire an additional ^15.76% equity stake from the existing shareholders of Give Vinduet Windows and Doors Private Limited (GVWDPL). After completion of the transaction, MCTL's shareholding in GVWDPL will increase to ^99.51%. Due to the reduction of the portion attributable

The Explanatory Statement of item no. 2 for point no. '9.' in the Notice about the shareholding pattern of the Company before the proposed issue and after the proposed issue of Equity Shares is as follows:

Sr.	Category	Pre-i	ssue	Post Issue (without	Warrants consider)	Post Issue (with Warrants Consider) *		
No.		No. of shares held	% of Shareholding	No. of shares held	% of Shareholding	No. of shares held	% of Shareholding	
Α	Promoters Holding						8	
1	Indian		0			6	2	
	Individuals	18,92,489	2.73	18,92,489	^2.66	18,92,489	^1.75	
- 2	Bodies Corporate	6,11,929	0.88	6,11,929	^0.86	6,11,929	^0.57	
	Sub Total	25,04,418	3.62	25,04,418	^3.52	25,04,418	^2.31	
2	Foreign Promoters	1,31,45,723	19.00	1,37,13,695	^19.30	1,37,13,695	^12.67	
	Sub Total (A)	1,56,50,141	22.62	1,62,18,113	^22.82	1,62,18,113	^14.98	
В	Non-promoters' holding						î .	
1	Institutional investors							
- 8	Banks	200	0.00	200	0.00	200	0.00	
- //	Central Government / President of India	1000	0.00	1000	0.00	1000	0.00	
2	Non-institution						7	
	Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs	78,07,453	11.28	78,07,993	^10.99	78,07,993	^7.23	
	Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs	2,64,24,892	38.19	^2,74,04,892	^38.56	^6,07,26,557	^56.10	
- /	Non-Resident Indians (NRIs)	16,22,085	2.34	16,22,085	^2.28	16,22,085	^1.50	
	Foreign Nationals	10,40,892	1.50	11,20,892	^1.58	11,20,892	^1.04	
- 8	Bodies Corporate	1,13,91,908	16.46	1,16,31,908	^16.37	1,16,31,908	^10.7	
- "	Directors and relatives	18,02,425	2.60	18,02,425	^2.54	42,61,315	^3.94	
- 3	others (including HUF, Firm, etc.)	34,60,790	5.00	34,60,790	^4.87	48,60,790	^4.49	
	Sub Total (B)	5,35,51,645	77.38	^5,48,52,185	^77.18	^9,20,32,740	^85.0	
-	Grand Total	6.92.01.786	100.00	^7.10.70.298	100.00	^10.82.50.853	100.00	

\*Note: The Company has allotted 1,16,89,473 warrants on 18th December, 2024 and 2,54,91,082 warrants on 1st January, 2025, which have not yet been converted into equity shares as of the date of this notice. However, for the purposes of the above post-issue shareholding with warrant consideration, it has been assumed that all such warrants are fully converted into equity shares. Consequently, the post-conversion share capital and shareholding percentages have been calculated on a fully diluted basis.

The Explanatory Statement of item no. 2 for point no. '20.' in the Notice about Identity of proposed allottees (including natural persons who are the ultimate beneficial owners of equity shares proposed to be allotted and/ or who ultimately control), the percentage (%) of Post Preferential Issue Capital that may be held by them and Change in Control, if any, consequent to the Preferential issue and the Current and proposed status of the allottee(s) post preferential issues namely, promoter or non-promoter:

Sr. No.	Name of the proposed allottees	Current Status / Proposed	Name of the natural persons who are the ultimate beneficial	Pre issue Shar	eholding	No. of Equity Shares to	(withou	Shareholding t warrant ersion)	Post issue Shareholding (with warrant conversion) *	
		Status Category	owners	No of share	%	be allotted	No of share	% of the post Capital	% of the post Capital	
1	Redribbon Modulex Buildings Limited	Promoter	Suchit Punnose	1,31,45,723	19.00%	5,67,972	1,37,13,695	19.30	12.67	
2	Prashant Developers Private Limited	Non- Promoter	Ajit Hardas Khodbhaya	32,52,033	4.70%	2,40,000	34,92,033	4.91	3.23	
3	Ajay Dilkush Sarupria	Non- Promoter	NA	-	0.00%	4,00,000	4,00,000	0.56	0.37	
4	Laxmi Devi Khare	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
5	G. Padmanabhan	Non- Promoter	NA	- 8	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
6	Trivikram Prabhakar Phadke	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
7	Devika Kailash Rajawat	Non- Promoter	NA		0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
8	Vijay Vaijnath Bhatt	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
9	Jasbir Singh	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
10	Sanjay Ramchandra Muley and Samidha Sanjay Muley	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
11	R. Parvathavardhini	Non- Promoter	NA	1,12,024	0.16%	40,000	1,52,024	0.21	0.14	
12	Samidha Sanjay Muley and Sanjay Ramchandra Muley	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
13	Anil Rasiklal Shah	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
14	D. Vathsala and DSL Prasad	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
15	M. Sudandiradevi	Non- Promoter	NA	- 9	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
16	Vigneshwar Mani	Non- Promoter	NA	-	0.00%	60,000	60,000	0.08	0.06	
17	Vijay Gunvantlal Shah and Daxaben Vijay Shah	Non- Promoter	NA	-	0.00%	540	540	0.00	0.00	
18	Thennarasu Velayutham	Non- Promoter	NA	- 0	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
19	Bharat Kumar Jain S	Non- Promoter	NA		0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
20	M Suresh	Non- Promoter	NA	- 3	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
		i 0	0	1,65,09780	23.86%	18,68,512	1,83,18292	25.90	17.03	

For Modulex Construction Technologies Limited



#### TATA POWER (Corporate Contracts Department)

Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

## NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible parties for "Outline agreement for Survey works for Trombay, Hydro Division and Hydro Special Projects for Two years Period (Tender Ref. No.: CC26PMR031)"

For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security, etc., please visit Tender section of our website (URL: https://www.tatapower.com/tender/tenders-listing). Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee on or before 22" December 2025.

## ARKA **Arka Fincap Limited**

Registered & Corporate Office: 2504, 2505, 2506, 25th Floor, One Lodha Place, Lodha World Towers Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 CIN: U65993MH2018PLC308329 Tel: +91 22 40471000

Website: www.arkafincap.com Email: customercare@arkafincap.com **NOTICE - BRANCH SHIFTING** Notice is hereby given that Arka Fincap Limited proposes to shift its branch office

currently located at: Wekreate Space, 2nd Floor, No MIG-12, Block No. 09, Vishwamanava Double Road, Sarawathipuram, Mysore, Karnataka - 570009 to the New Address at 1st Floor, No, 123, Sukha complex, 1st floor, N Block main road, Kuvempu nagar, Mysore road, Karnataka-570023, effective 15<sup>th</sup> January, 2026. For any assistance, please contact at +91 22 40471000 or send an email to grievanceredressal@arkafincap.com

For Arka Fincap Limited Niki Mehta

Place: Mumbai **Company Secretary and Chief Compliance Officer** 

Date: December 12, 2025

A K TIOSKAT Group Company The mark 'Kirloskar' in the status in line is owned by Kirloskar Proprietary Limited and ARKA Fincap Limited is the permitted user.

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



University's website only.

## CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA NAAC Accredited 'A' Grade University MAHENDERGARH - 123031 (HARYANA)

Ph.D. Admission Notice 2025-26 Date: 09.12.2025 Online applications are invited for the admission to Ph.D. programmes (Full time) for the Academic Session 2025-26 (January Cycle) in various Departments. Last date for submission of online application form is 30/12/2025. For more detail please visit University website www.cuh.ac.in. Any further information in this regard shall be uploaded on the

## | JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

S. No : JDA/EE & TA to Dir. Engg.-1/2025-26/ Dated: 12.12.2025

# **NOTICE INVITING BID**

NIB No.: EE & TA to Dir. Engg.-1/37/2025-26

Bids are invited from interested bidders for following works :-

S. No.	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	Nature of Work	Last Date
1	JDA2526WSOB00539	214.45	Road	30.12.2025
2	JDA2526WSOB00540	421.30	Road	30.12.2025
3	JDA2526WSRC00551	286.52	Construction of various remaining/	05.01.2026

Other particulars of the respective bid may be visited on Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.rajasthan.gov.in.

> Executive Engineer & TA to Dir.Engg-I

missing

sector roads



## **ALLCARGO TERMINALS LIMITED**

Raj.Samwad/C/25/15744

Allcargo Terminals Limited was incorporated on February 05, 2019 in the State of Maharashtra and was converted into public limited w.e.f. January 10, 2022 and consequently a fresh certificate of incorporation was issued to our Company by Registrar of Companies, Mumbai. The shares of our Company got listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India ("NSE") with effect from August 10, 2023 pursuant to scheme of demerger and arrangement ("Scheme") between Alicargo Logistics Limited, Alicargo Terminals Limited and TransIndia Realty & Logistics Parks Limited and its respective shareholders. For details of changes in the registered office of our Company, see "General Information" beginning on page 2 of the Letter of Offer.

Registered Office and Corporate Office: 4h Floor, A Wing, Alcargo House, CST Road, Kalina, Santacruz East, Vidyanagari, Mumbai 400098, Maharashtra, India Tel: 022-6679 8110 | Website: www.allcargoterminals.com | Contact Person: Mr Malay Talati (Company Secretary & Compliance Officer), E-mail: investor.relations@alicargoterminals.com | Corporate Identity Number: L60300MH2019PLC320697

OUR PROMOTERS: MR SHASHI KIRAN JANARDHAN SHETTY, MRS ARATHI SHETTY, MR ADARSH SUDHAKAR HEGDE

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ALLCARGO TERMINALS LIMITED ("OUR COMPANY OR COMPANY") ONLY

ISSUE OF UPTO 3,97,98,999 PARTLY PAID EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 2 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 18/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 80 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 19 (NINETEEN ) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025, (THE "ISSUE")

## BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Allcargo Terminals Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Monday November 24, 2025 and closed on Tuesday, December 09, 2025 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being Wednesday, December 03, 2025. The Company received Bids of 10,236 Applications for 7,45,42,013 Rights Equity Shares and out of which 1,440 Applications for 18,40,090 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications were 8,796 for 7,27,01,923 Rights Equity Shares, representing 182.67% of the Rights Equity Shares offered under the Issue. The Basis of Allotment was finalized on Wednesday, December 10, 2025 by the Company in consultation with the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the issue. The Board of Directors of the Company, through circular resolution dated December 11, 2025, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 3,97,98,999 Partly paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

Information regarding Applications received (including ASBA applications received)

	Applications Received		Equi	ty shares applied for	or	Equity shares allotted		
Category	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Non Renouncees	10118	98.85	72792798	363963990.00	97.65	38884594	194422970.00	97.70
Renouncees	118	1.15	1749215	8746075.00	2.35	914405	4572025.00	2.30
Total	10236	100.00	74542013	372710065.00	100.00	39798999	198994995.00	100.00

Rejection:

Category	Applications received	Equity anaics applied for
Non-ASBA	0	0
ASBA	1,440	18,40,090
Total	1,440	18,40,090
3. Basis of Allotment:		**************************************

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
	Number	Number	Number	Number
Non Renouncees	8671	34346456	4538138	38884594
Renouncees	118	914405	0	914405
Total	8789	35260861	4538138	39798999

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT / REFUND / REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors who have provided their email address, have been sent on their email address on December 12, 2025. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on December 10, 2025. The Listing application was filled with BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) on December 11, 2025. and the Listing approval was received on December 12, 2025. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees were completed on December 12, 2025, by NSDL and CDSL. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on Page 84 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading approval. The trading is expected to commence on or about December 15, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/31 dated March 11, 2025, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL and CDSL on December 12, 2025 and the same is under process of extinguishment.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that submission of Letter of offer of SEBI should not in any way deemed or construed that letter of offer has been cleared or approved by SEBI

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors area advised to refer to page 56 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited\*.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been

REGISTRAR TO THE ISSUE

cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to page 57 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of NSE".

THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.



MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited)
C 101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra.

Tel: +91 810 811 4949

Email: allcargo.rights2025@in.mpms.mufg.com

Website: www.mpms.mufg.com

Contact Person: Ms Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration No. INR000004058

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue/Post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/first holder. Folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form or the plain paper application as the case may be, was submitted by the investor along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the

> For Allcargo Terminals Limited On behalf of the Board of Directors

Date: December 13, 2025 Company Secretary & Compliance Officer

Note: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed ie. BSE at www.bseindia.com and the website of the company at www.alicargoterminals.com.

All other contents of the notice remain unchanged.

Place: Pune

Date: 12th December, 2025

**Company Secretary** 

epaper.financialexpress.com

Place: Mumbai

**Bhoomi Mewada** 

ASBA process, please see the section titled "Terms of the issue" on page 59 of the LOF.

**FINANCIAL EXPRESS** 

2,35,000

1,37,000

3,72,000

## Continue From Previous Page ...

E.Allocation to QIBs Category- Mutual Fund and other (Excluding Anchor Investor) (After Rejections): The Basis of Allotment to the Qualified Institutional Buyers (Excluding Anchor Investor), at the Offer price of ₹ 138/- per Equity Share, was finalized in consultation with BRLM. The category received 3 applications for 5.03.000 Equity Charge. The total number of charge allotted in this category is 3.72.000 Equity Charge to 3 successful

	The details of the Bas				otteu iii tiiis cati	sgory is 3,72,00	JO Equity Sha	162 10 3 20006221
Category	FIS/BANKS	MF's	IC's	NBFC's	AIF	FPC	VC's	Total

F.Allocation to Anchor Investor (After Rejection): The Company and Selling Shareholders in consultation with BRLM allotted 5,58,000 Equity Shares to 2 (Two) Anchor Investor at an Offer Price of ₹ 138/- per share in accordance with SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

Category	FIS/BANKS	MF's	VCF	NBFC's	AIF	FPI	Others	Total
Anchor	8	878	2	1070	2,18,000	3,40,000	9725	5,58,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on December 11, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation have been mailed to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched. mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account before December 12, 2025. In case the same is not received within ten days, Investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on December 12, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE and the trading of the Equity Shares is expected to commence trading on December 15, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated December 10, 2025 filed with the Registrar of Companies, Mumbai ("RoC").

## **INVESTORS, PLEASE NOTE**

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Offer, MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) at www.in.mpms.mufg.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:



## **MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED**

(Formerly Link Intime India Private Limited)

Address: C-101, 247 Park, 1st Floor, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083, (Maharashtra), India

Telephone: +91 810 811 4949

Email: prodocssolutions.smeipo@in.mpms.mufg.com

Investor Grievance Email: prodocssolutions.smeipo@in.mpms.mufg.com

Contact Person: Shanti Gopalkrishnan Website: www.in.mpms.mufg.com SEBI Registration Number: INR000004058

CIN: U67190MH1999PTC118368

Place: Mumbai

Date: December 12, 2025

On Behalf of the Board of Directors

Sd/-Nidhi Parth Sheth **Managing Director** 

For Prodocs Solutions Limited

DIN: 08386886

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF PRODOCS SOLUTIONS LIMITED.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have same meanings assigned to them in the Prospectus.

Disclaimer: Prodocs Solutions Limited has filed the Prospectus with ROC on December 10, 2025, and thereafter with SEBI and Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of BRLM, Cumulative Capital Private Limited at www.cumulativecapital.group. Investors should note that investment in Equity Shares involve a high degree of risk and for details relating to the same. please see "Risk Factor" beginning on page 31 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under U.S. Securities Act of 1993, as amended ("the Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulations under Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales were made. There will be no public offering in the United States.



Regd. Office: A-82, MIDC Industrial Estate, Indapur, Pune – 413132, Maharashtra Email: compliance@modulex.in; Website: www.modulex.in; Tel: 02111-299200

CORRIGENDUM TO POSTAL BALLOT NOTICE WHICH IS SCHEDULED TO HELD ON 17<sup>TH</sup> DECEMBER, 2025 This Corrigendum is being issued in connection to the Postal Ballot Notice dated 14th November, 2025 which has been sent to all the shareholders on 17th November, 2025. The following

alterations/modifications in the Notice are hereby notified through this corrigendum to all the shareholders: Notice of Postal ballot removes Proposed Allottee

In accordance with Regulation 159(1) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, which specifies that a preferential issue of specified securities cannot be made to any person who has sold or transferred any equity shares, it has come to our attention that the proposed allottee, Mr. Prafulchandra Yahwantrai Mehta, is ineligible for the preferential issue Therefore, we have decided to remove the name of Mr. Prafulchandra Yahwantrai Mehta. The changes will be reflected throughout the relevant sections of the Notice and related documents

This change will be effective immediately. The corrections are marked with the symbol ' $^{\prime\prime}$ ' at the relevant places below. The issue and allot upto ^18,68,512 Equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each at a price of Rs. 25/- (Rupees Twenty-Five Only) per share, aggregating to not exceeding ^Rs. 4,67,12,800/-

(Rupees Four Crores Sixty-Seven Lakhs Twelve Thousand Eight Hundred Only) and MCTL will acquire an additional ^15.76% equity stake from the existing shareholders of Give Vinduet Windows and Doors Private Limited (GVWDPL). After completion of the transaction, MCTL's shareholding in GVWDPL will increase to ^99.51%. Due to the reduction of the portion attributable

The Explanatory Statement of item no. 2 for point no. '9.' in the Notice about the shareholding pattern of the Company before the proposed issue and after the proposed issue of Equity Shares is as follows:

Sr.	Category	Pre-i	ssue	Post Issue (without	Warrants consider)	Post Issue (with Warrants Consider) *		
No.		No. of shares held	% of Shareholding	No. of shares held	% of Shareholding	No. of shares held	% of Shareholding	
Α	Promoters Holding							
1	Indian		1: 0			(	ii.	
	Individuals	18,92,489	2.73	18,92,489	^2.66	18,92,489	^1.75	
	Bodies Corporate	6,11,929	0.88	6,11,929	^0.86	6,11,929	^0.57	
	Sub Total	25,04,418	3.62	25,04,418	^3.52	25,04,418	^2.31	
2	Foreign Promoters	1,31,45,723	19.00	1,37,13,695	^19.30	1,37,13,695	^12.67	
	Sub Total (A)	1,56,50,141	22.62	1,62,18,113	^22.82	1,62,18,113	^14.98	
В	Non-promoters' holding		1			Š.	3	
1	Institutional investors		3			C.	Ĉ.	
	Banks	200	0.00	200	0.00	200	0.00	
	Central Government / President of India	1000	0.00	1000	0.00	1000	0.00	
2	Non-institution							
	Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs	78,07,453	11.28	78,07,993	^10.99	78,07,993	^7.23	
	Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs	2,64,24,892	38.19	^2,74,04,892	^38.56	^6,07,26,557	^56.10	
	Non-Resident Indians (NRIs)	16,22,085	2.34	16,22,085	^2.28	16,22,085	^1.50	
	Foreign Nationals	10,40,892	1.50	11,20,892	^1.58	11,20,892	^1.04	
	Bodies Corporate	1,13,91,908	16.46	1,16,31,908	^16.37	1,16,31,908	^10.7	
	Directors and relatives	18,02,425	2.60	18,02,425	^2.54	42,61,315	^3.94	
	others (including HUF, Firm, etc.)	34,60,790	5.00	34,60,790	^4.87	48,60,790	^4.49	
	Sub Total (B)	5,35,51,645	77.38	^5,48,52,185	^77.18	^9,20,32,740	^85.02	
	Grand Total	6,92,01,786	100.00	^7,10,70,298	100.00	^10,82,50,853	100.00	

\*Note: The Company has allotted 1,16,89,473 warrants on 18th December, 2024 and 2,54,91,082 warrants on 1st January, 2025, which have not yet been converted into equity shares as of the date of this notice. However, for the purposes of the above post-issue shareholding with warrant consideration, it has been assumed that all such warrants are fully converted into equity shares. Consequently, the post-conversion share capital and shareholding percentages have been calculated on a fully diluted basis.

The Explanatory Statement of item no. 2 for point no. '20.' in the Notice about Identity of proposed allottees (including natural persons who are the ultimate beneficial owners of equity shares proposed to be allotted and/ or who ultimately control), the percentage (%) of Post Preferential Issue Capital that may be held by them and Change in Control, if any, consequent to the Preferential issue and the Current and proposed status of the allottee(s) post preferential issues namely, promoter or non-promoter:

Sr. No.	Name of the proposed allottees	Current Status / Proposed	Name of the natural persons who are the ultimate beneficial	Pre issue Shar	eholding	No. of Equity Shares to	(withou	Shareholding t warrant ersion)	Post issue Shareholding (with warrant conversion) *	
		Status Category	owners	No of share	%	be allotted	No of share	% of the post Capital	% of the post Capital	
1	Redribbon Modulex Buildings Limited	Promoter	Suchit Punnose	1,31,45,723	19.00%	5,67,972	1,37,13,695	19.30	12.67	
2	Prashant Developers Private Limited	Non- Promoter	Ajit Hardas Khodbhaya	32,52,033	4.70%	2,40,000	34,92,033	4.91	3.23	
3	Ajay Dilkush Sarupria	Non- Promoter	NA	- 3	0.00%	4,00,000	4,00,000	0.56	0.37	
4	Laxmi Devi Khare	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
5	G. Padmanabhan	Non- Promoter	NA	- 8	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
6	Trivikram Prabhakar Phadke	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
7	Devika Kailash Rajawat	Non- Promoter	NA		0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
8	Vijay Vaijnath Bhatt	Non- Promoter	NA		0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
9	Jasbir Singh	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
10	Sanjay Ramchandra Muley and Samidha Sanjay Muley	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
11	R. Parvathavardhini	Non- Promoter	NA	1,12,024	0.16%	40,000	1,52,024	0.21	0.14	
12	Samidha Sanjay Muley and Sanjay Ramchandra Muley	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
13	Anil Rasiklal Shah	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
14	D. Vathsala and DSL Prasad	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
15	M. Sudandiradevi	Non- Promoter	NA	- 9	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
16	Vigneshwar Mani	Non- Promoter	NA	- 8	0.00%	60,000	60,000	0.08	0.06	
17	Vijay Gunvantlal Shah and Daxaben Vijay Shah	Non- Promoter	NA	-	0.00%	540	540	0.00	0.00	
18	Thennarasu Velayutham	Non- Promoter	NA	- )	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
19	Bharat Kumar Jain S	Non- Promoter	NA		0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
20	M Suresh	Non- Promoter	NA	-	0.00%	40,000	40,000	0.06	0.04	
		0	9	1,65,09780	23.86%	18,68,512	1,83,18292	25.90	17.03	

For Modulex Construction Technologies Limited



#### TATA POWER (Corporate Contracts Department)

Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

## NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible parties for "Outline agreement for Survey works for Trombay, Hydro Division and Hydro Special Projects for Two years Period (Tender Ref. No.: CC26PMR031)"

For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security, etc., please visit Tender section of our website (URL: https://www.tatapower.com/tender/tenders-listing). Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee on or before 22" December 2025.

## ARKA **Arka Fincap Limited**

Registered & Corporate Office: 2504, 2505, 2506, 25th Floor, One Lodha Place, Lodha World Towers Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 CIN: U65993MH2018PLC308329 Tel: +91 22 40471000

> Website: www.arkafincap.com Email: customercare@arkafincap.com **NOTICE - BRANCH SHIFTING**

Notice is hereby given that Arka Fincap Limited proposes to shift its branch office currently located at: Wekreate Space, 2nd Floor, No MIG-12, Block No. 09, Vishwamanava Double Road, Sarawathipuram, Mysore, Karnataka - 570009 to the New Address at 1st Floor, No, 123, Sukha complex, 1st floor, N Block main road, Kuvempu nagar, Mysore road, Karnataka-570023, effective 15<sup>th</sup> January, 2026. For any assistance, please contact at +91 22 40471000 or send an email to grievanceredressal@arkafincap.com

For Arka Fincap Limited Niki Mehta Date: December 12, 2025

Place: Mumbai **Company Secretary and Chief Compliance Officer** A K Prioskar Group Company

The mark 'Kirloskar' in the status in line is owned by Kirloskar Proprietary Limited and ARKA Fincap Limited is the permitted user.

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



Ph.D. Admission Notice 2025-26 Date: 09.12.2025 Online applications are invited for the admission to Ph.D. programmes (Full time) for the Academic Session 2025-26 (January Cycle) in various Departments. Last date for submission of online application form is 30/12/2025. For more detail please visit University website www.cuh.ac.in. Any further information in this regard shall be uploaded on the University's website only. REGISTRAR

## JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004 S. No : JDA/EE & TA to Dir. Engg.-1/2025-26/ Dated: 12.12.2025

# **NOTICE INVITING BID**

NIB No.: EE & TA to Dir. Engg.-1/37/2025-26

Bids are invited from interested bidders for following works :-

S. No.	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	Nature of Work	Last Date
1	JDA2526WSOB00539	214.45	Road	30.12.2025
2	JDA2526WSOB00540	421.30	Road	30.12.2025
3	JDA2526WSRC00551	286,52	Construction of various remaining/ missing	05.01.2026

Other particulars of the respective bid may be visited on Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.rajasthan.gov.in.

**Executive Engineer &** TA to Dir.Engg-I Raj.Samwad/C/25/15744

Equity charge applied for

sector roads



## **ALLCARGO TERMINALS LIMITED**

Alicargo Terminals Limited was incorporated on February 05, 2019 in the State of Maharashtra and was converted into public limited w.e.f. January 10, 2022 and consequently a fresh certificate of incorporation was issued to our Company by Registrar of Companies, Mumbai. The shares of our Company got listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India ("NSE") with effect from August 10, 2023 pursuant to scheme of demerger and arrangement ("Scheme") between Alicargo Logistics Limited, Alicargo Terminals Limited and TransIndia Realty & Logistics Parks Limited and its respective shareholders. For details of changes in the registered office of our Company, see 'General Information' beginning on page 2 of the Letter of Offer.

Registered Office and Corporate Office: 4h Floor, A Wing, Alcargo House, CST Road, Kalina, Santacruz East, Vidyanagari, Mumbai 400098, Maharashtra, India Tel: 022-6679 8110 | Website: www.allcargoterminals.com | Contact Person: Mr Malay Talati (Company Secretary & Compliance Officer). E-mail: investor.relations@alicargoterminals.com | Corporate Identity Number: L60300MH2019PLC320697

OUR PROMOTERS: MR SHASHI KIRAN JANARDHAN SHETTY, MRS ARATHI SHETTY, MR ADARSH SUDHAKAR HEGDE

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ALLCARGO TERMINALS LIMITED ("OUR COMPANY OR COMPANY") ONLY

ISSUE OF UPTO 3,97,98,999 PARTLY PAID EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 2 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 18/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"). AGGREGATING UPTO ₹ 80 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 19 (NINETEEN ) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025, (THE "ISSUE")

## BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Alicargo Terminals Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Monday November 24, 2025 and closed on Tuesday, December 09, 2025 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being Wednesday, December 03, 2025. The Company received Bids of 10,236 Applications for 7,45,42,013 Rights Equity Shares and out of which 1,440 Applications for 18,40,090 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications were 8,796 for 7,27,01,923 Rights Equity Shares, representing 182.67% of the Rights Equity Shares offered under the Issue. The Basis of Allotment was finalized on Wednesday, December 10, 2025 by the Company in consultation with the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the issue. The Board of Directors of the Company, through circular resolution dated December 11, 2025, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 3,97,98,999 Partly paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

Information regarding Applications received (including ASBA applications received)

Category	Applications Received		Equity shares applied for			Equity shares allotted		
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Non Renouncees	10118	98.85	72792798	363963990.00	97.65	38884594	194422970.00	97.70
Renouncees	118	1.15	1749215	8746075.00	2.35	914405	4572025.00	2.30
Total	10236	100.00	74542013	372710065.00	100.00	39798999	198994995.00	100.00

Rejection:

Applicationa received	entarty strates appress to:
0	0
1,440	18,40,090
1,440	18,40,090
	0 1,440

No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Number	Number	Number	Number
8671	34346456	4538138	38884594
118	914405	0	914405
8789	35260861	4538138	39798999
	Number 8671 118	(including ASBA applications) accepted and allotted against Entitlement (A)  Number Number  8671 34346456  118 914405	(including ASBA applications) accepted and allotted against Additional applied (B)  Number Number Number Number 4538138:  118 914405 0

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT / REFUND / REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors who have provided their email address, have been sent on their email address on December 12, 2025. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on December 10, 2025. The Listing application was filled with BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) on December 11, 2025. and the Listing approval was received on December 12, 2025. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees were completed on December 12, 2025, by NSDL and CDSL. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on Page 84 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading approval. The trading is expected to commence on or about December 15, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/31 dated March 11, 2025, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL and CDSL on December 12, 2025 and the same is under process of extinguishment.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that submission of Letter of offer of SEBI should not in any way deemed or construed that letter of offer has been cleared or approved by SEBI

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors area advised to refer to page 56 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited\*.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been

cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to page 57 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of NSE\*

THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.



REGISTRAR TO THE ISSUE MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited)
C 101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra.

Tel: +91 810 811 4949 Email: allcargo.rights2025@in.mpms.mufg.com

Website: www.mpms.mufa.com

Contact Person: Ms Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration No. INR000004058

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue/Post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/first holder. Folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form or the plain paper application as the case may be, was submitted by the investor along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, please see the section titled "Terms of the issue" on page 59 of the LOF.

For Allcargo Terminals Limited

On behalf of the Board of Directors

Date: December 13, 2025 Company Secretary & Compliance Officer Place: Mumbal

Exchange where the Equity Shares are listed ie. BSE at www.bseindia.com and the website of the company at www.alicargoterminals.com.

All other contents of the notice remain unchanged.

Place: Pune

Date: 12th December, 2025

**Bhoomi Mewada Company Secretary** 

epaper.financialexpress.com

New Delhi

Note: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of the Stock

## Orignial Suit (Commercial) No. 107 of 2025

IN THE MATTER OF:-CANARA BANK, a body corporate constituted under the banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 having its Head Office at - 112, Jayachama, Rajendra Road, Bangalore and amongst others a Branch Office at Sector 15, Basoiya Complex, Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201301, through its Officer / Manager and Power of Attorney holder Mr. Amit Kumar Choudhary s/o Shri Choudhury Ugender, aged about 41 Years, Adhar No. 8656 3134 0019, Mobile 8860508576, email I.D. cb19347@canarabank.com

...PLAINTIFF BANK

## **VERSUS**

#### SOURAV S/O Mr. Om Prakash, Proprietor of M/s Sourav Enterprises,

Office at: 16/7051, Mata Rameshwari, Nehru Nagar, Tank Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Mobile No. 91-8882226785

Also at: G-34, First Floor, Sector-03, Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201301 Also at: 20-A, Ganga Puram, C/o Mrs. Nirmala Devi, W/o Mr. Om Prakash, Mawana

Road Near FIT College, Ganga Nagar, Meerut, District Meerut, Uttar Pradesh-250001

Also at: J1/183, First Floor, DDA Flats, Kalkaji, New Delhi-110019

...DEFENDANT WHEREAS Plaintiff has instituted a suit for recovery of Rs.11,19,509.56/- against you, you are hereby summoned to appear in this court in person, or by a pleader duly instructed (and able to answer all material questions relating to suit, or who shall be accompanied by some person; able to answer all such questions, on **16th day of January, 2026**, at 10.00 O'clock in the morning, to answer the claim; and as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposed of the suit. You must be prepared to produce on the day all the witnesses upon whose evidence and all the documents upon which you intend to reply

mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, this 21th day of November, 2025. MUNSIRM/READER

in support of your defense. Take notice that, in default of your appearance on the day before

## परिशिष्ट IV-A

## अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्सपेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्शन ऑफ फायनॉशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अबल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी हैं, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी सम्मान फिनसर्व लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) [CIN : U65923DL2006PLC150632] (''सुरक्षित लेनदार द्वारा") द्वारा रचनात्मक कब्जा लिया जा चुका है, 15.01.2026 को शाम 05.00 बजे से 06.00 बजे तक "जहां है", "जैसा है", और "जो कुछ भी है", की वसूली के लिए ऋण खाता नं. HLLABRL00526502 के लिए रु. 33,03,353/- (रुपए तैंतीस लाख तीन हजार तीन सौ तिरेपन मात्र) के लिए 04.12.2025 तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और व्याज ऋण समझीते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ 05.12.2025 से प्रभावी जो दीपक (प्रोपराइटर, मेसर्स दीपक किराना स्टोर), नरेश उर्फ **नरेश कुमार और राजेश्वरी** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की क्सूली के लिए बेचा जाएगा ।

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य रू. 36,25,000/- (रूपए छत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) होगा और अनेंस्ट मनी डिपॉजिट (''ईएमडी'') रु. 3,62,500/- (रुपए तीन लाख बासठ हजार **पांच सौ मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा ।

## अचल संपत्ति का वर्णन

प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 126.39 दर्ग गज है के हिल्से पर बने मकान के सभी भाग और खंड, बेअरिंग खसरा नंबर- 159 और 160, बांकी ग्राम-परतापुर चौंघरी, बरेली-243001, उत्तर प्रदेश, जो

निम्नानुसार सीमाबद्ध है: पूर्व : दूसरे का प्लॉट, उत्तर : चेक मार्ग की सडक, पश्चिम: आरजी फारिक अब्बल, दक्षिण : आरजी फारिक अब्बल।

बिकी के विस्तृत नियमों और शतों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.sammaanfinserve.com देखें ; संपर्क का नंबर : 0124-6910910, +91 7065451024 ; ई-मेल आईडी : auctionhelpline@sammaancapital.com। बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

प्राधिकृत अधिकारी सम्मान फिनसर्व लिमिटेड दिनांक : 05.12.2025 (पहले इंडियाबल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के स्थान : बरेली नाम से जाना जाता था)

## कब्जा सूचना

जबकि, जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गवन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की घारा 13 (2) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ताओं(ओं) को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उधारकर्ताओं से उनके नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस में उल्लिखित लाग् दरों पर ब्याज सहित भगतान और / या वस्ली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्ययं, लागत, शुल्क आदि सहित, भविष्य में लागू ब्याज सहित उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आहवान किया गया है।

क्र. सं.	ऋण सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बकाया राशि (रु. में)	तिथि / समय और कब्जे का प्रकार
1	32620430000306	श्री शिवम कुमार (उधारकर्ता),     श्रीमती मीसम देवी (सह—उधारकर्ता)	24.09.2025 21-09-2025 तक रु. 5,00,686.95 (रु. पाँच लाख छह सी छियासी और पैसे पिच्यान्ये मात्र)	11.12.2025 समयः 04.11 बजे सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल रिहायशी संपत्ति का वह समस्त माग एवं अंश जोकि प्लॉट पर मीज़दा मकान का माप पूर्व में 45 फीट, पश्चिम में 45 फीट, उत्तर में 20 फीट, दक्षिण में 20 फीट कुल क्षेत्रफल 100 बर्ग गज यानी 83.60 वर्ग मी गाँव धंधेरा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001, मौसम देवी, पत्नी श्री समुंद्र पाल के खामित्व में, सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण : राजक्मार का प्लॉट, पूर्व : श्री किरण का खेत, पश्चिम: श्री योगेश का प्लॉट

जबकि ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सचित किया जाता है कि जना रमॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं और आम जनता को एतदवारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियो / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन—देन न करें और उक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमार के अधीन होगा।

स्थानः मुज्जुफरनबर हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, क्ते जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड तिथिः 13.12.2025

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भृतल एवं प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी डोमलर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगर्लोर-560071। शाखा कार्यालयः बेसमेंट, यू.पी टावर, बी 7-8 और जी 7-8, संजय पैलेस, आगरा, उत्तर प्रदेश-282002

#### कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड totalk ota Mahindra पंजीकृत कार्यालय : 27बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई– 400051 शाखा कार्यालय : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, भूखंड सं 7, सेक्टर 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201313

मांग सूचना, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत

दावा की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

स्थान : उत्तर प्रदेश, दिनाँक : 13-12-2025

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर बैंक / वित्तीय संस्था से ऋण लिया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, और इसके पुनर्भुगतान में चूक की है आपके चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋणों को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उक्त ऋण खातों को सभी अधिकारों, स्वामित्वों और हितों, लाभों और देय राशियों सहित कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में अलग-अलग हस्तांतरण विलेखों के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया गया है, जिनका उल्लेख नीचे किय गया है। बैंक ने उक्त हस्तांतरण के अनुसार और बकाया राशि की वसूली के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसकी सामग्री अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) व साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(2) के तहत, आपके लिए वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रकाशित की जा रही है। उधारकर्ता सह-उधारकर्ता, प्रतिभृतियां, ऋणदाता, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजा गया मांग नोटिस और उसके तहत

उधारकर्ता, सह—उधारकर्ताओं के नाम तथा पते, ऋण खाता सं., ऋण राशि	अचल संपत्ति के विवरण	<ol> <li>ऋणदात का नाम</li> <li>एसाइंमेंट की तिथि</li> <li>मांग सचना तिथि</li> </ol>
पते, ऋण खाता सं., ऋण राशि  1. श्री इरफान खान पुत्र श्री पप्पन खान एर 2. श्रीमती मुवीना बेगम श्री पप्पन खान और द श्रीमान के साथ। पप्पन खान पुत्र श्री बाबू खार एवं 4. श्री सलमान खान पुत्र श्री पप्पन खार एवं 5. श्री इमरान अब्बास पुत्र श्री पप्पन खार सभी का पता : मकान नंबर 31— 31, पार्क व पीछे, विष्णुपुरी, सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश 204216, सभी यहां भीः मैसर्स न्यू संग्रा परिधान, बच्चा का पिछला भाग पार्क विष्णुपुर्र सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश—204216, सभ् यहां भीः मैसर्स पप्पन फ्रूट एंड कंपनी, 31—31 पार्क के पिचे, विष्णुपुरी, सासनी, हाथरस, उत्त प्रदेश—204216	ते. क्षेत्रफल 18.483 वर्ग मीटर है,  ते गोदाम का क्षेत्रफल 18.483 वर्ग  मीटर है, कुल क्षेत्रफल 36.966  ते, वर्ग मीटर और दो मंजिला  के इमारत, जो मोहल्ला विष्णुपुरी,  गाम ससानी, तहसील ससानी,  जिला हाथरस, बच्चा पार्क के  ते, पीछे, उत्तर प्रदेश 204216 में  स्थित है। एसआर ससानी  कार्यालय, हाथरस में दस्तावेज	2. एसाइमट का तिथि 3. मांग सूचना तिथि 4. देय पाशि रु. में 1. विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (विस्तार) 2. 28.03.2025 3. 28.11.2025 4. रु. 20,47,878.14 (रुपये बीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ अठहत्तर और चौदह पैसे मात्र) 28.11.2025 तक देय और 29.11.2025 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज सहित।
0189SBML02471 स्वीकृत ऋण राशि : रु. 14,00,000 / – (चौदह लाख रुपये मात्र)  1. श्री रोहित अग्रवाल पुत्र श्री हरि ओम अग्रवाल एवं 2. श्रीमती बीना अग्रवाल उर्फ घ्य्वीणा अग्रवाल पत्नी श्री हरिओम अग्रवाल	है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार है 15 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तर— 24 खान का घर, गिरवीदार का नाम निर्मित क्षेत्र का वह भाग, जो 74.37 मीटर के भूखंड पर स्थित है (नया व 4/एच संख्या 142), जो आबादी	फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण— मुन्ना :- श्रीमती मुवीना बेगम वर्ग 1. विस्तार फाइनेंशियल वार्ड सर्विसेज लिमिटेड (विस्तार) नई 2. 28.03.2025
एवं 3. श्री प्रभाष अग्रवाल पुत्र श्री हरिओम अग्रवाल एवं 4. श्री निखिल अग्रवाल पुत्र श्री हरिओम अग्रवाल, सभी का पता : नई बस्ती त्यागी कॉलोनी, सुभाष गली, सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश— 281306, सभी यहां पर भी : मैसर्स बालाजी ऑटो पाट्स—टाउन एरिया मार्केट, रोडवेज बस स्टैंड के पास, सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश—281306, सभी यहां पर भी : मोहल्ला— तिकया फकीर, सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश—281306 ऋण खाता संख्या : 0188SBML02525	बस्ती त्यागी कॉलोनी, तहर सदाबाद, जिला महामयनगर, उ प्रदेश 281306 में स्थित है। रजिस्ट्रार सदाबाद में दस्तावेज सं 4627, पुस्तक 1, खंड संख्या 17 पृष्ठ 217—238, दिनांक 30.07.20 उक्त संपत्ति की सीमाएँ: पूर्वः निजाम घर, पश्चिमः घर का दरवाजा और 1 6 फीट चौड़ी गली, उत्तरः जगदीश की खाली जमीन, दक्षिणः त्य कॉलोनी और क्रेता का घर। व क्षेत्रफलः 74.37 वर्ग मीटर। बंधकव का नामः श्रीमती बीना अग्रवाल	त्तर 4. 13,96,849.87 / — (रुपये उप तेरह लाख छियानबे हजार ख्या आठ सौ उनचास तथा सत्तासी पैसे मात्र) 10 । 17.11.2025 तक देय एवं भुगतानयोग्य और फिर 29.11.2025 से पूर्ण भुगतान गर्म तक लागू ख्याज सहित
स्वीकृत ऋण राशि : रु. 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)	वीना अग्रवाल	V4/

अतः, आप, उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता / उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान, साथ ही ऊपर वर्णित ब्याज का पूरा भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें। ऐसा न करने पर, अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। आपका ध्यान अधिनियम की घारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत आपको उपरोक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर गिरवी रखी गई संपत्ति को भूनाने की स्वतंत्रता है। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतियों को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी : कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्ति(यों) के विक्रयार्थ 15 दिवसीय ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभृत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियों, जिनका भौतिक अधिग्रहण एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, का विक्रय दिनांक 30—12—2025 को मध्याहन 11.00 बजे से लेकर के अपराहन 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ) ''जैसी हैं जहां हैं'', "जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा। यह विक्रय रु. 34,73,695/-(रुपये चौंतिस लाख तिहत्तर हजार छह सौ पिचानबे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि की वस्ती की तिथि तक इस पर आकलित भावी ब्याज एवं अन्य व्ययों की वसूली के लिए किया जाएगा, जो ऋणकर्ताओं एवं गारंटर(रों) नामतः राजू प्रजापति, गौरी शंकर, विजय देवी की ओर से एसएमएफजी

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

SMFG एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड निगमित कार्यालयः 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा

कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई— 400051

इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) को देय-भुग्तेय है। आरक्षित मूल्य रु. 26,08,227 / – (रुपये छब्बीस लाख आठ हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा (धराज) रु. २,60,823 / – (रुपये दो लाख साठ हजार आठ सौ तेईस मात्र) होगी। धराज जमा की अंतिम तिथि 29-12-2025 है।

अचल संपत्ति का विवरण : संपत्ति सं. 1.— भूखंड सं. 19/4 वाली संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो ट्रांसपोर्ट नगर, हरिपर्वत वार्ड, तहसील एवं जनपद— आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। संपत्ति सं. २.– भूखंड सं. 18 वाली संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो सेक्टर 4, ट्रांसपोर्ट नगर, गैलाना, तहसील एवं जनपद— आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.smfgindiacredit.com पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड दिनाँक : 13-12-2025

## SUMMONS FOR PUBLICATION

SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUES (ORDER-5 RULE 1 & 5) BEFORE THE Add, CIVIL JUDGE (Jr. Div.) Court No. 1, G.B. NAGAR Original Sult No. 382/2020

Canara Bark, a body corporate constituted under the banking companies (Acquistion & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as per scheme of amalgamation dt. 84.83.2020 having its Head Office at 112, J.C. Road, Bengaluru -560002, Kamataka State and amongst others a Branch office at Sector-24 Branch. Norda, District Gautam Budh Nagar U.P. through Sanjeev Sharma, Sr. Br. Manager, Canara Bank, RMLC, Sector-52, Noida, Gautam Budh Nagar U.P.

## M/s. Om Sai Clinic, Prop. Dr. Mano; Bajpai, age about 58 years. Sto Om Shankar Bajpai, Address: A-15, Sector-22, Noida, District- Gautam Budh Nagar, U.P.

## **Defendants**

Plaintiff Bank

Whereas Canara Bank instituted a suit against you for recovery of Rs. 1,10,141/- You are hereby summoned to appear in this Court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the suit, or who, shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the 16,01,2025, at 10 O'clock in the Court, to answer the claim; and further you are here By directed to file on that day a written statement of your defense and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defense or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defense or claim for set-off or counterclaim, you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement)

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence

Given under my hand and the seal of the Court, this 24 day of 11,2025



MUNSIRIMIREADER Add. CIVIL JUDGE (Jr. Div.), COURT NO.1, GAUTAM BUDH NAGAR

## MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN: L65910KL1992PLC006623, Registered Office: W - 4/638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

## निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.01,2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सुचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

दिल्ली, भोलेनाथ नगर दिल्ली, 121570700003931, गीता कॉलोनी, 107590700008308, कडकडब्रुमा, 102760700013873, कालकाजी, 100870700074245, 100870700083154, 100870730042217, शालीमार बाग, 102780700005603, 102780730017192, शास्त्री नक्षर, 108450700006602, विश्वास नगर दिल्ली, 123330700007440, 123330700030224, पर्व दिलली, भजनपुरा दिल्ली, 122040700066721, जगतपुरी दिल्ली, 120840700007294, मौजपुर दिल्ली, 122690700041175, नयी दिलली, हरी नक्षर, 108520700015527, करोलबाग, 100850700017449, 100850700043523, ओल्ड राजेन्द्रनगर, 110450750000009, पालम कॉलोनी, 107760700023462, पिरागढी, 108640700029335, 9343, राजापुरी, 109680730019983, तुगलकाबाद एक्स्टेंशन कालकाजी, 111110700045240, 5263, 5305, 7207, उत्तम नक्षर, 107630700041823, उतर् दिलली, भोरगढ़ दिल्ली, 124540700014366, मॉडल टाउन, 109010700018657, 109010700020640, 109010730023552, रोहिणी सेक्टर 109670700022750, 109670750000030, पश्चिम् दिलली, पितमपुरा दिल्ली,

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा: - इच्छक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू. 10,000/- नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 9911809139 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी मणप्पुरम फायमेंस लि. हेत्.

#### हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 09, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057, शाखा कार्यालय : कार्यालय संख्या 510-ए, पांचवीं मंजिल, साइबर हाइट्स, प्लॉट संख्या विकास के किया है होती है जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिन Fn. 226010

## सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी) [प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना एतदुद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) या उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा जमानतियों से बकायों की वसूली के लिए 30 दिसंबर, 2025 (ई-नीलामी तिथि) को ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मुल्य और जमा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी को डिमांड डाफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से बोली प्रपत्र के साथ सार्वजनिक ई-नीलामी में भाग लेने के लिए हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के पास 29 दिसंबर, 2025 को 5 बजे अप. तक शाखा कार्यालयः कार्यालय संख्या 510-ए, पांचवीं मंजिल, साइबर हाइट्स, प्लॉट संख्या टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, विभृति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिन 226010 में जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	कर्जदार( रों )/सह- कर्जदार( रों )/ जमानती( यों )/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि के नाम	माँग सूचना तिथि तिथि तक राशि	कब्जे का प्रकार ( रचनात्मक/ भौतिक कब्जे के तहत)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
HHFLU- CHOU 19000004063	मोहम्मद रबीउलअव्वल, शाजिया अव्वल	25/09/2023, रु. 32,37,890/- तिथि 11/12/2025	भौतिक	रू. 27,00,000∕	रु. 2,70,000∕-

संपत्ति का विवरण:- प्लॉट संख्या- 03, खसरा संख्या 328 मिन का भाग, क्षेत्रफल 1069 वर्ग फुट अर्थात 99.349 वर्ग मीटर, ग्राम-भूहर, वार्ड-हैदरगंज जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित, सीमाएं : उत्तर: 16 फुट चौड़ी सड़क, पूर्व: अन्य का प्लॉट, दक्षिणः नन्ही की संपत्ति, पश्चिमः शरद का प्लॉट

HHFLUCHOU 20000011716	हिमांशु मल्ल, अंजिता मल्ल	26/07/2024, रु. 17,14,220/- तिथि 11/12/2025	भौतिक	रू. 10,50,000∕	रू. 1,05,000
		, खसरा संख्या 153 मिंज के भाग प			
अर्थात 330 वर्ग	फीट, कुल निर्मित क्षेत्र	त्रफल 37.174 वर्ग मीटर यानी 400	) वर्ग फीट, गाँव-	- रहीम नगर डु	डौल, वार्ड-

फलजुल्लागंज, तहसील और जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित। सीमाएं:- पूर्वः गुफरान का मकान, उत्तरः इरफान का प्लॉट, पश्चिमः 16 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः गुलाब गुप्ता का मकान। नियम एवं शर्तें : ई-नीलामी पोर्टल https://bankeauctions.com के माध्यम से 30 दिसंबर, 2025 (ई-नीलामी की

तिथि) को 11.00 बजे पूर्वा. के बाद 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ सम्पन्न होगी। इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि आरटीजीएस/एनईएफटी या डिमांड डाफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ''हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में जमा करानी होगी। ईएमडी राशि ई-नीलामी के समापन के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी। ई-नीलामी के नियम एवं शर्ते : 1. ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'', ''जो कुछ भी है वहीं है'' और

''बिना किसी आश्रय'' के आधार पर आयोजित किया जा रहा है और इसे 'ऑनलाइन' आयोजित किया जाएगा। 2. बोली वृद्धि राशि रु. 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) होगी। 3. ई-नीलामी मेसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री धरणी कृष्णा- 9948182222 (हेल्पलाइन नंबर: सपोर्ट लैंडलाइन नंबर +91 124 4302020/2021/2022/2023/2024, सपोर्ट मोबाइल नंबर: +917291981124/25/26 तथा

ई-मेल support@bankeauctions.com/ andhra@c1india.com) के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://bankeauctions.com पर आयोजित की जाएगी। 4. प्रितिभृत लेनदारों की जानकारी में संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपने बिल जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में, ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या हीरो हाउसिंग

फाइनेंस लिमिटेड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। 5. प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभृत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेवसाइटः www.herohousingfinance.com में प्रकाशित की गई हैं

6. संपत्ति के विवरण और संपत्ति देखने के लिए श्री इरशाद अली / ershad.ali@herohfl.com/ 8802270415 तथा शेखर सिंह/9711522275/ shekhar.singh@herohfl.com से संपर्क करें। 7. संभावित बोलीदाता पूर्व अनुमित सिंहत 24 दिसंबर, 2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

#### कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 15 दिवसीय बिक्री सूचना पर्युक्त कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती को एतद्वारा धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से पहले ब्याज और व्यय के साथ करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी की

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) की वेबसाइट यानि www.herohousingfinance.com पर लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero\_housing/other-notice देखें।

दिनांक: 13.12.2025

जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई भी, आपसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड श्री शेखर सिंह, मो. 9711522275 ई-मेल : shekhar.singh@herohfl.com एल&टी फायनांस लिमिटेड

(पहले इसे एल&टी फायनांस होल्डिम्स लिमिटेड कहा जाता था) **पंजीकृत कार्यालय:** एल&टी फायनांस लिमिटेड, बृंदावन बिल्डिंग,

प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मर्सडीज़ शोरूम के पास, सांताकुज़ (पूर्व), मुंबई 400 098 सीआईएन नं.: L67120MH2008PLC181833 शाखा कार्यालय: दिल्ली



## सोना नीलामी की सूचना

एतददारा सभी संबंधितों की जानकारी हेतु सचित किया जाता है कि कंपनी की निम्नलिखित शाखाओं में संबंधित कर्ज संख्याओं के अंतर्गत गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों, जिनका मोचन कराया जाना बकाया था और जिन्हें कंपनी द्वारा बार-बार सूचना देने के बावजूद संबंधित ग्राहकों द्वारा अब तक नहीं चुकाया गया है, उनकी नीलामी कंपनी के संबंधित शाखा कार्यालयों में शनिवार 20 दिसंबर, 2025 को निप्नलिखित विवरणों के अनुसार की जाएगी:-

 क्ररायल नगर शाखा - एल&टी फायनांस लि., के 274, मेन रोड, करावल नगर, दिल्ली. पिन कोंड - 110094 फोन - 8544964544 कर्ज संख्या - 219210000000610. 219210000000621, 219210000000678 (समय सुबह 11:00 बजे)

2. कर्तार नगर शाखा - एल&टी फायनांस लि., जे-33, मेन रोड, कर्तार नगर, 4था पुस्ता, दिल्ली. पिन कोड - 110053. फोन - 9501466626 कर्ज संख्या - 209210000001674 (समय सुबह

 किरारी शाखा - एल&टी फायनांस लिमिटेड खसरा नं. 1012, सुलेमान नगर, किरारी-दिल्ली. पिन कोड - 110086. फोन - 8968866676 कर्ज संख्या - 211210000000683, 211210000000702 (समय सुबह 11:00 बजे)

4. मोहन गार्डन दिल्ली शाखा - एल&टी कायनांस लिमिटेड प्लॉट नं. 8 9 एक ब्लॉक मोहन गार्डन, नई दिल्ली. पिन कोड - 110059. फोन - 8264133393 कर्ज संख्या - 202210000000995

5. नजफगढ़ शाखा - एल&टी फायनांस लि., तल मंजिल, आरजेड3, बी ब्लॉक, ओल्ड रोशनपुरा, नजफगढ़, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, पिन कोड - 110043, फोन - 8427733393 कर्ज संख्या -203210000001149, 203210000001084 (समय सुबह 11:00 बजे)

कृपया ध्यान दें कि यदि किसी कारणवश नीलामी उपरोक्त दिनांक पर पूरी नहीं हो पाती है, तो यह बिना किसी पूर्व सूचना के 27 दिसंबर 2025 को उसी स्थान और समय पर आयोजित की जाएगी. ध्यान दें : संबंधित ग्राहक नीलामी के दिनांक से पहले आभूषणों को मुक्त करवा सकते हैं.

ध्यान दें. एल&टी फायनांस प्रायवेंट लिमिटेड के पास अपने विवेकाधीन, किसी भी कर्ज खाते के अंतर्गत किसी भी आभूषण को बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी सूची से हटाने का अधिकार है. ध्यान दें. बोलीकर्ताओं से निवेदन हैं कि वे पहचान पत्र, पैन कार्ड और पंजीकृत डीलरों के मामले में दिन नंबर प्रस्तुत करें. सफल बोलीकर्ता से पूरी नीलामी की राशि तुरंत आरटीजीएस/किसी अन्य अनुमत माध्यम से कंपनी को हस्तांतरित करने का निवेदन किया जाता है.

प्राधिकृत अधिकारी

एल&टी फायनांस लिमिटेड के लिए

उपरोक्त सूचना के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया 1800 268 0000 पर या संबंधित शाखा से संपर्क करें.

दिनांक: 13.12.2025

स्थान: दिल्ली



## **ALLCARGO TERMINALS LIMITED**

Allcargo Terminals Limited was incorporated on February 05, 2019 in the State of Maharashtra and was converted into public limited w.e.f. January 10, 2022 and consequently a fresh certificate of incorporation was issued to our Company by Registrar of Companies, Mumbai. The shares of our Company got listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India ("NSE") with effect from August 10, 2023 pursuant to scheme of demerger and arrangement ("Scheme") between Allcargo Logistics Limited, Allcargo Terminals Limited and TransIndia Realty & Logistics Parks Limited and its respective shareholders. For details of changes in the registered office of our Company, see 'General Information' beginning on page 2 of the Letter of Offer.

Registered Office and Corporate Office: 4th Floor, A Wing, Alicargo House, CST Road, Kalina, Santacruz East, Vidyanagari, Mumbai 400098, Maharashtra, India Tel: 022-6679 8110 | Website: www.allcargoterminals.com | Contact Person: Mr Malay Talati (Company Secretary & Compliance Officer), E-mail: investor.relations@allcargoterminals.com | Corporate Identity Number: L60300MH2019PLC320697

## OUR PROMOTERS: MR SHASHI KIRAN JANARDHAN SHETTY, MRS ARATHI SHETTY, MR ADARSH SUDHAKAR HEGDE

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ALLCARGO TERMINALS LIMITED ("OUR COMPANY OR COMPANY") ONLY

ISSUE OF UPTO 3,97,98,999 PARTLY PAID EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 2 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 18/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 80 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 19 (NINETEEN ) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025, (THE "ISSUE").

## BASIS OF ALLOTMENT The Board of Directors of Alicargo Terminals Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Monday,

November 24, 2025 and closed on Tuesday, December 09, 2025 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being Wednesday, December 03, 2025. The Company received Bids of 10,236 Applications for 7,45,42,013 Rights Equity Shares and out of which 1,440 Applications for 18,40,090 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications were 8,796 for 7,27,01,923 Rights Equity Shares, representing 182,67% of the Rights Equity Shares offered under the Issue. The Basis of Allotment was finalized on Wednesday, December 10, 2025 by the Company in consultation with the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the issue. The Board of Directors of the Company, through circular resolution dated December 11, 2025, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 3,97,98,999 Partly paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment,

Information regarding Applications received (including ASBA applications received)

Category	Applications Received		Equity shares applied for			Equity shares allotted		
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Non Renouncees	10118	98.85	72792798	363963990.00	97.65	38884594	194422970.00	97.70
Renouncees	118	1.15	1749215	8746075.00	2.35	914405	4572025.00	2.30
Total	10236	100.00	74542013	372710065.00	100.00	39798999	198994995.00	100.00

2. Rejection:

Category	Applications received	Equity shares applied for
Non-ASBA	0	0
ASBA	1,440	18,40,090
Total	1,440	18,40,090

Basis of Allotment:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number	Number	Number	Number	
Non Renouncees	8671	34346456	4538138	38884594	
Renouncees	118	914405	0	914405	
Total	8789	35260861	4538138	39798999	

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT / REFUND / REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors who have provided their email address; have been sent on their email address on December 12, 2025. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on December 10, 2025. The Listing application was filled with BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) on December 11, 2025. and the Listing approval was received on December 12, 2025. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees were completed on December 12, 2025, by NSDL and CDSL. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on Page 84 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading approval. The trading is expected to commence on or about December 15, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/31 dated March 11, 2025, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL and CDSL on December 12, 2025 and the same is under process of extinguishment.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that submission of Letter of offer of SEBI should not in any way deemed or construed that letter of offer has been cleared or approved by SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors area advised to refer to page 56 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited". DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been

cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to page 57 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of NSE". THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS

OF THE COMPANY.

REGISTRAR TO THE ISSUE

ASBA process, please see the section titled "Terms of the issue" on page 59 of the LOF.

Date: December 13, 2025

Place: Mumbai

MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited)
C 101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra. MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) Tel: +91 810 811 4949

Email: allcargo.rights2025@in.mpms.mufg.com Website: www.mpms.mufg.com Contact Person: Ms Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration No. INR000004058

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue/Post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/first holder, Folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form or the plain paper application as the case may be, was submitted by the investor along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the

> For Allcargo Terminals Limited On behalf of the Board of Directors

Malay Talati Company Secretary & Compliance Officer

Note: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed ie. BSE at www.bseindia.com and the website of the company at www.allcargoterminals.com.

# चांदी 1.99 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर

अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने बताया कि शुक्रवार को सफेद धातु के दामों में 5100 रुपए की बढ़ोतरी हुई

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमत में लगातार तीसरे दिन तेजी आई और यह 5,100 रुपए बढ़कर 1,99,500 रुपए प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। सरक्षित निवेश वाली परिसंपत्तियों की सतत वैश्विक मांग के बीच चांदी के भाव में तेजी




अ खिला भारतीय सर्राफा ने यह जानकारी दी। चांदी गुरुवार को 2,400 रुपये ढाढ.क र 1,94,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एक दिन

11,500 रुपए की तेजी आई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि घरेलू बाजार में, हाजिर चांदी की कीमतों ने एक बार फिर नई ऊंचाई को छुआ। वहीं सोने के दाम में भी काफी बढ़ोतरी हुई, जो रेकार्ड स्तर के पास पहुंच गई है।

सर्राफा संघ के अनुसार, स्थानीय सर्राफा

रुपया 17 पैसे लुढ़ककर सबसे निचले स्तर 90 .49 प्रति डालर पर बंद मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिका मुद्रा के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 17 पैसे लुढ़ककर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.49 प्रति डालर पर बंद



में रुपया, अमेरिकी डालर के मुकाबले 90 .43 पर खुला। फिर लुढ़कता हुआ रेकार्ड निचले स्तर 90 .56 प्रति डालर तक नीचे आँ गया। अंत में यह 90 .49 पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 17 पैसे की गिरावट है। रुपया गुरुवार को 38 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.32 प्रति डालर पर बंद हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में देरी से रूपए पर असर पड़ सकता है, इसलिए रुपए के नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करने का अनुमान है।

बाजार में 99.9 फीसद शुद्धता वाला सोना 1,110 रुपए बढ़कर 1,33,600 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,32,490 रुपए

प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। का कारण मुख्य रूप से कमजोर रुपए और लगातार निवेश की मांग है । अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 58.61 डालर यानी 1.37 फीसद बढ़कर 4,338.40 डालर प्रति

औंस हो गया। कोटक सिक्योरिटीज के प्रमुख (करेंसी और कमोडिटी), अनिंद्य बनर्जी ने कहा कि ऐसे समय जब महंगाई का खतरा बढ़ रहा है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में 0.25 फीसद की कटौती के उन्होंने कहा कि कीमती धातु में उछाल बाद सोने और चांदी में अच्छी तेजी आई है। विदेशी व्यापार में लगातार चौथे दिन बढत के साथ, हाजिर चांदी एक फीसद से ज्यादा बढ़कर 64.57 डालर प्रति औंस के नए शिखर पर पहंच गया।

# बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 450 अंक उछला, निफ्टी 26 हजार पार

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)।

सकारात्मक वैश्विक संकेतों और धातु शेयरों में लिवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स में 449 अंकों की तेजी रही जबकि निफ्टी एक बार फिर 26,000 के स्तर के पार पहुंच गया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 449.53 अंक यानी 0.53 फीसद की बढ़त के साथ 85,267.66 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 502.69 अंक चढकर 85,320.82 तक पहंच गया था। एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी भी 148.40 अंक यानी 0.57 फीसद मजबूत होकर 26,046.95 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से टाटा स्टील, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी, मारुति और भारती एयरटेल के शेयर चढ़कर बंद हुए। दूसरी तरफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, आइटीसी और एशियन पेंट्स के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती किए जाने के बाद वैश्विक निवेशकों की जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

विदेशी मुद्रा भंडार 687.26 अरब डालर पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 1.03 अरब डालर बढकर 687 .26 अरब डालर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.88 अरब डालर घटकर 686.23 अरब डालर रह गया था। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पांच दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तिया 1.51 अरब डालर घटकर 556 .88 अरब डालर रह गईं। डालर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड व येन जैसी गैर–अमेरिकी मुद्राओं के मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का प्रभाव शामिल होता है।

(कोलसेतु) लाई गई है जो गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति 2016 में एक अलग व्यवस्था के तौर पर जोडी जाएगी। कोयला लिंकेज का मतलब कोयले की आपूर्ति का अधिकार या अनुबंध से है। यह किसी उद्योग या संयंत्र को तय समय और मात्रा के लिए दिया जाता है। इस नीति के तहत किसी भी औद्योगिक उपयोग या

खबर कोना

अंतिम उपयोग की बंदिशों के

बगैर कोयला नीलामी के लिए

'कोलसेतु' को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विभिन्न

औद्योगिक उपयोगों एवं निर्यात के लिए कोयले

की नीलामी को लेकर 'कोलसेतु' व्यवस्था को

मंजूरी दी जिससे संसाधन का उचित उपयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति

(सीसीईए) की बैठक में कोलसेतु को मंजूरी

दी गई। एक आधिकारिक बयान के अनुसार

सुगम, प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग के लिए

कोयला लिंकेज की नीलामी नीतिह्न

और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

सरकार ने विपणन सत्र २०२६ के लिए कोपरा का एमएसपी ४४५ रूपए बढ़ाया

निर्यात के लिए घरेलू खरीदार लंबे समय तक

कोयले की नीलामीं में भाग ले सकते हैं।

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल उत्पादकों की आय बढ़ाने के मकसद से शुक्रवार को विपणन सत्र 2026 के लिए मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ४४५ रुपए बढ़ाकर 12,027 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इस विपणन सत्र के लिए बाल कोपरा का एमएसपी 400 रुपए बढाकर

12,500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। इन प्रस्तावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दी। यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। वैष्णव ने कहा कि एमएसपी वृद्धि का उद्देश्य नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को बेहतर दाम सुनिश्चित करना और कोपरा उत्पादन को बढावा देना है। मिलिंग और बाल कोपरा दोनों के लिए एमएसपी का निर्धारण 'उचित एवं औसत गुणवत्ता' के आधार पर कृषि लागत और मुल्य आयोग की सिफारिश पर किया गया है।

## भारत, न्यूजीलैंड ने एफटीए वार्ता तेज करने के तरीकों पर की चर्चा

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

भारत और न्यूजीलैंड ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द आगे बढ़ाने के तरीकों पर शुक्रवार को बातचीत की। न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टाड मैकवले इस समय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ एफटीए वार्ता में प्रगति की समीक्षा के लिए भारत दौरे पर हैं। गोयल ने बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने भारत-न्युजीलैंड एफटीए के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की और पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए वार्ता को आगे बढाने के उपायों पर विचार किया। दोनों देशों के बीच एफटीए पर आधिकारिक बातचीत 16 मार्च, 2025 को शुरू हुई थी और अब तक इसके चार चरण पूरे हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 1.3 अरब डालर रहा, जो इसके एक साल पहले की तुलना में करीब ४९ फीसद अधिक है। न्यूजीलैंड का औसत आयात शुल्क केवल २ .३ फीसद है।

## मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख किया नियुक्त

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि जैन भारत में सोशल मीडिया कंपनी की नीति रणनीति एवं गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। जैन भारत के नेतृत्व दल के सदस्य भी होंगे। वह अगले साल की शुरुआत में कंपनी में शामिल होंगे और मेटा में एशिया प्रशांत के नीति उपाध्यक्ष साइमन मिलनर के अधीन काम करेंगे। मेटा ने नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि अमन जैन के पास सार्वजनिक नीति एवं व्यापार रणनीति का

अमेजन, गूगल, भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उनका एक सफल 'ट्रैक रेकार्ड' है। एशिया प्रशांत के नीति उपाध्यक्ष साइमन मिलनर ने कहा कि भारत मेटा के लिए एक रणनीतिक बाजार है।

20 से अधिक वर्ष का अनुभव है। साथ ही

# तेलंगाना के पूर्व खुफिया प्रमुख ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया

हैदराबाद, 12 दिसंबर (भाषा)।

फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व खुफिया प्रमुख टी प्रभाकर राव ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शुक्रवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

तेलंगाना विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआइबी) के पूर्व प्रमुख राव ने पूर्वाह्न 11 बजे जुबली हिल्स थाने में जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। हैदराबाद पुलिस ने मार्च 2024 से अब तक

निलंबित एसआइबी के पुलिस उपाधीक्षक समेत चार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने भारत राष्ट्र समिति की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विभिन्न इलेक्टानिक उपकरणों से खिफया जानकारी मिटाई और फोन टैप किए। बाद में चारों पलिस अधिकारियों को जमानत दे दी गई।

राव ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानसार आत्मसमर्पण किया। गुरुवार को न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि यह आदेश राव के खिलाफ अपराधों की विस्तृत जांच के लिए पारित किया गया है।

करूर भगदड़ हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

# हाई कोर्ट में कुछ गड़बड़ चल रही है, जो सही नहीं है

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में हुई

भगदड की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय आयोग और एसआइटी को निलंबित करने संबंधी अपने आदेश में शुक्रवार को संशोधन करने से इनकार कर दिया जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी।

शीर्ष अदालत ने इसी के साथ तमिलनाडु सरकार की ओर से इस

संबंध में दाखिल याचिका को खारिज करते हए कहा कि हम चाहते हैं कि सब कुछ निष्पक्ष और तटस्थ हो। पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय में कुछ गड़बड़ चल रही है। उच्च न्यायालय में जो हो रहा है वह सही नहीं है। न्यायमुर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमुर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दायर रपट की कड़ी

आलोचना करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय में कुछ गड़बड़ चल रही है। शीर्ष अदालत ने 13 अक्तूबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो से करूर भगदड़ की जांच कराने का आदेश दिया। भगदड़ की

घटना 27 सितंबर को अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेत्री कषगम की रैली के दौरान हुई थी। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि इस घटना ने राष्ट्रीय चेतना को झकझोर दिया है और निष्पक्ष और तटस्थ जांच की हकदार है।टीवीके द्वारा स्वतंत्र जांच का अनुरोध करते

हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया और इसकी निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय के पर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया। इसके साथ विशेष जांच टीम और एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति के निर्देशों को निलंबित कर दिया था।

माइक्रोसाफ्ट के भारत-दक्षिण एशिया के अध्यक्ष ने कहा

# नौकरियां नहीं छीनेगी कृत्रिम मेधा, स्थिर करिअर वाली आखिरी पीढी

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसाफ्ट के भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष पुनीत चंडोक ने शुक्रवार को कहा कि कृत्रिम मेधा (एआइ) नौकरियां नहीं छीन पाएगी, बल्कि असली खतरा उन लोगों के लिए है जो नई चीजें सीखने से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने से कार्यों का विभाजन होगा।

चंडोक ने कहा कि हमारी पीढ़ी आखिरी है जो स्थिर और लंबी अवधि वाले करिअर का आनंद लेगी। माइक्रोसाफ्ट कृत्रिम मेधा टूर के दौरान अपने संबोधन में चंडोक ने कहा कि क्या एआइ नौकरियां छीन लेगा? मेरा मानना है कि नहीं। एआइ नौकरियां नहीं छीन पाएगा। यह नौकरियों का विश्लेषण करेगा और उन्हें अलग-अलग हिस्सों में बांट देगा। उन्होंने कहा कि हम और आप आखिरी पीढी हैं जिनके पास स्थिर और लंबी अवधि की नौकरियां होंगी।

# अगले सप्ताह भारत लाए जा सकते हैं लूथरा बंध्र

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाम के क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत के बाद फरार चल रहे क्लब मालिक सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा के भारत लौटाए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों के अगले सप्ताह भारत पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि कानुनी औपचारिकताओं की जटिलता तथा सप्ताहांत में प्रशासनिक कार्यों की सुस्ती के चलते

दूतावास सौरभ और गौरव लूथरा के मामले में र्थाई अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। दूतावास के हस्तक्षेप के बाद थाई अधिकारियों ने दोनों को फुकेट में हिरासत में लिया है। फिलहाल थाई प्रशासन स्थानीय कानूनों के अनुसार कार्रवाई कर रहा है, जिसमें भारत भेजने की प्रक्रिया भी शामिल है। आगे की कार्रवाई के तहत दोनों भाइयों को फुकेट से बैंकाक स्थित आव्रजन विभाग केंद्र ले जाया जाएगा। बैंकाक में उन्हें आपातकालीन यात्रा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

यह प्रक्रिया कुछ लंबी हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार, बैंकाक स्थित भारतीय



## allcargo TERMINALS

## ALLCARGO TERMINALS LIMITED

Allcargo Terminals Limited was incorporated on February 05, 2019 in the State of Maharashtra and was converted into public limited w.e.f. January 10, 2022 and consequently a fresh certificate of incorporation was issued to our Company by Registrar of Companies, Mumbai. The shares of our Company got listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India ("NSE") with effect from August 10, 2023 pursuant to scheme of demerger and arrangement ("Scheme") between Alicargo Logistics Limited, Alicargo Terminals Limited and TransIndia Realty & Logistics Parks Limited and its respective shareholders. For details of changes in the registered office of our Company, see 'General Information' beginning on page 2 of the Letter of Offer.

Registered Office and Corporate Office: 4º Floor, A Wing, Allcargo House, CST Road, Kaina, Santacruz East, Vidyanagari, Mumbai 400098, Maharashtra, India Tel: 022-6679 8110 | Website: www.alcargoterminals.com | Contact Person: Mr Malay Talati (Company Secretary & Compliance Officer). E-mail: investor.relations@allcargoterminals.com | Corporate Identity Number: L60300MH2019PLC320697

OUR PROMOTERS: MR SHASHI KIRAN JANARDHAN SHETTY, MRS ARATHI SHETTY, MR ADARSH SUDHAKAR HEGDE

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ALLCARGO TERMINALS LIMITED ("OUR COMPANY OR COMPANY") ONLY

ISSUE OF UPTO 3,97,98,999 PARTLY PAID EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 2 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 18/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 80 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 19 (NINETEEN ) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025, (THE "ISSUE").

## BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Alicargo Terminals Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Monday, November 24, 2025 and closed on Tuesday, December 09, 2025 with the last date for an market renunciation of Rights Entitlements being Wednesday, December 03, 2025. The Company received Bids of 10,236 Applications for 7,45,42,013 Rights Equity Shares and out of which 1,440 Applications for 18,40,090 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications were 8,796 for 7,27,01,923 Rights Equity Shares, representing 182.67% of the Rights Equity Shares offered under the Issue. The Basis of Allotment was finalized on Wednesday, December 10, 2025 by the Company in consultation with the Registrar to the Issue and BSE. Limited, the Designated Stock Exchange for the issue. The Board of Directors of the Company, through circular resolution dated December 11, 2025, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 3,97,98,999 Partly paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

Information regarding Applications received (including ASRA applications received)

92/6	Applications Received		Equity shares applied for			Equity shares allotted		
Category	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Non Renouncees	10118	98.85	72792798	363963990.00	97.65	38884594	194422970.00	97.70
Renouncees	118	1.15	1749215	8746075.00	2.35	914405	4572025.00	2.30
Total	10236	100,00	74542013	372710065.00	100.00	39798999	198994995.00	100.00

Category	Applications received	Equity shares applied for
Non-ASBA	. 0	0
ASBA	1,440	18,40,090
Total	1,440	18,40,090

Basis of Allotment:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
	Number	Number	Number	Number
Non Renouncees	8671	34346456	4538138	38884594
Renouncees	118	914405	0	914405
Total	8789	35260861	4538138	39798999

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT / REFUND / REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors who have provided their email address, have been sent on their email address on December 12, 2025. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on December 10, 2025. The Listing application was filled with BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) on December 11, 2025. and the Listing approval was received on December 12, 2025. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees were completed on December 12, 2025, by NSDL and CDSL. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on Page 84 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading approval. The trading is expected to commence on or about December 15, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/31 dated March 11, 2025, the request for extinguishment

of Rights Entitlements has been sent to NSDL and CDSL on December 12, 2025 and the same is under process of extinguishment. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that submission of Letter of offer of SEBI should not in any way deemed or construed that letter of offer has been cleared or approved by SEBI

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE); "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed. or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors area advised to refer to page 56 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited"

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the Cetter of Offer. The investors are advised to refer to page 57 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of NSE\*

THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

REGISTRAR TO THE ISSUE

MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) C 101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra. Tel: +91 810 811 4949

Email: allcargo.rights2025@in.mpms.mufg.com Website: www.mpms.mufg.com Contact Person: Ms Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration No. INR000004058

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue/Post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/first holder, Folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form or the plain paper application as the case may be, was submitted by the investor along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, please see the section titled "Terms of the issue" on page 59 of the LOF.

For Allcargo Terminals Limited On behalf of the Board of Directors

Date: December 13, 2025 Place: Mumbai

Malay Talati

Company Secretary & Compliance Officer

Note: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed ie. BSE at www.bseindia.com and the website of the company at www.allcargoterminals.com.

epaper.jansatta.com

#### PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that my client Miss. Tanvi Deepak Sanil and Miss. Kajal Deepak Sanil and Mrs. Raniani Deepak Sanil are the Legal

neirs of Mr. Deepak K Sanil. This is to inform public at large that Mr. Deepal K Sanil along with Mrs. Ranjani Deepak Sanil vide Agreement for Sale dated 08/09/2005 duly stamped and registered under serial No. TNN-10-06014-2005, has purchased Flat No. 701 adm, 460 sq. ft. Built up area, on 7th floor, 'B' wing "Sanghvi Nagar Shankhesh A, B, C, Building Co operative Housing Society Limited", Hatkesh, Mira Bhayander Road, Mira Road (East), District 401 107, on all that piece and parcel of land bearing Survey No. 174, Hissa No. 4 of Village Mira, within the limits of Mira Bhayandar Municipal Corporation, Taluka Registration Sub – District and District of Thane. Thereafter Mr. Deepak K Sanil expired or 02/12/2021 leaving behind his wife i.e. Mrs. Ranjani Deepak Sanil, and his 2 daughters i.e. Miss. Tanvi Deepak Sanil and Miss. Kaia Deepak Sanil as his only surviving legal heirs and representatives. As per Hindu Succession Act, Mrs. Ranjani Deepak Sanil, Miss. Tanvi Deepak Sanil and Miss. Kajal Deepak Sanil are entitled to 50% Share of Mr. Deepak K Sanil in

he said Flat No. 701. In the view of above all persons/bank/financial stitution having any claim, right, interest or objection of whatsoever nature in respect of the above mentioned Flat No. 701 by way of nheritance, share, sale, license, gift, mortgage charge, possession, lease, assignment, lien, ownership, transfer, access, easement, encumbrances howsoever or otherwise are reby requested to make the same known in writing to the undersigned at the address give below with supporting documents within 14 (Fourteen) days from the date of publication of this notice, failing which, it will be assumed that said property.

> Komal N. Jain. Advocate (High Court) Office No. 402, 4"floor, Vaishali Shopping Centre, Beside Natraj Market, S. V. Road, Malad (West) Mumbai - 400 064

#### जाहीर सूचना येते सचना देण्यात येत आहे की, माझे अशीव

श्री. गोपन कुट्टी नायर हे घरकुल क्रमांक सी-५ शांतीवन को ऑप हौ सो लि., प्लॉट क्रमांक २४३, गोराई-२, बोरीवली पश्चिम, मुंबई- ४०००९२ येथे राहत असून यांच्या कडून श्री. शशिकांत सोनाबा लोखंडे यांना म्हाडाने दिलेल्या दि. २४, १२/१९९२ रोजीचे अर्जदाराच्या मेळाव्याचे मळ प्रमाणपत्र ज्याचा क्रमांक. ३८४३/९२ असा असु आणि दिनांक २१/०५/१९९२ रोजीचे श्री. शशिकांत सोनाबा लोखंडे यांना देण्यात आलेले मुळ वाटप प्रत्र ज्याचा क्रमांक ACSC 4633 असा अस्-अशी ही मळ प्रमाणपत्रे प्रवास करताना हरवलेली आहेत. ज्याची तक्रार गोराई पोलीस स्टेशन येथे दिनांक १२/१२/२०२५ रोजी दाखल करण्या आली आहे, जिचा गहाळ रजि. क्र. १६५६१५ २०२५ असा आहे. तसेच हरवलेल्या म्हाडा-दिलेल्या मुळ प्रमाणपत्र कोणा व्यक्तीस सापडले किंवा या घरकुला बाबत काही दावा / आक्षेप असल्यास त्यांनी लेखी स्वरुपात खालील स्वाक्षरीकर्त्यांकडे खाली नमद केलेल्या पत्याव आजच्या तारखेपासून १४ दिवसात कळवावे अन्यथा असा दावा अस्तित्वात नाही असे समजण्या येईल

सही/ ॲड.दिनकर एच. मिश्रा पत्ता : शॉप नं. ०७, साई दरबार को.ऑप.हौ.सो. तळींज बाजार जवळ. वर्तक टॉवर समोर गलासोपारा (पुर्व), ता. वसई, जि. पालघर ४०१

## सार्वजनिक सूचना

ही सार्वजनिक सूचना देण्यात येते की मेसर्स **श्री सिद्धिविनायक** एंटरप्रायझेस (विकासक आणि श्रीमती पष्पलता भिकाजी मांजरेकर (मत) मळ पात्र झोपडाधारक यांच्यामधील मळ कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारनामा प्रतिज्ञापत्र हे हरविले / चुकीने ठेवले गेल्यामुळे उपलब्ध होत नाहीत.

वरील कागदपत्रे हट क्र. FSM-148-3-15 दाभोलकरवाडी, महात्मा गांधी स्मृती वसाहत अव ब विभाग, जेरबाई वाडिया रोड, परळ, मुंबई ४०००१२. तसेच त्याबदल्यात मिळालेल्य सदनिका के ३१५ श्री गणेश साई एसआरा प्रहकारी गहनिर्माण संस्था मर्यादित, जेरबाई वाडिया रोड, परळ, मुंबई - ४०००१२ या संदर्भात

उक्त करारनामा अंदाजे सन २००८ मध्ये करण्यात आला होता

ही सूचना श्रीमती पुष्पलता भिकाजी मांजरेकर यांच्या कायदेशीर वारसांमार्फतसिद्ध करण्यात येत असून, वरील सदनिका संदर्भात कोणताही दावा हरकती किंवा बोजा अस्तित्वात आहे का पड़ताळण्यासाठी देण्यात येत आहे

ज्यांच्या कडे वरील सदनिकेबाबत हक्क. ताबा स्वामित्व. व्याज. तारण. बोजा किंवा कोणतार्ही दावा असेल, त्या/त्या व्यक्ती, बँका, वित्तीय संस्था किंवा प्राधिकरणांनी या सचनेच्या प्रकाशनानंतर १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत खाली स्वाक्षर . करणाऱ्यांना आणि/किंवा त्यांचे अधिवक्ता यांना लेखी स्वरूपात तसेच पुराव्यांसह कळवावे.

निर्धारित मुदतीत कोणताही दावा किंवा हरकत प्राप्त न झाल्यास असे मानण्यात येईल की कोणताही दावा अथवा बोजा अस्तित्वात नाही आणि त्यानुसार संबंधित मालमत्तेबाबत पुढील

कारवाई करण्यात येईल. सही/ नरेंद्र मुसळे. दिनांक : १३.१२.२०२५ स्थळ : मुंबई वकील, उच्च न्यायालय रूम न. २२ व २३बी, विस्सानजी पार्क, सी विंग, एम. एम. जी. एस. मार्ग, दादर पूर्व, मुंबई-४०००१२ ई मेल : narendra.musale@outlook.com

फोन न. <sup>९</sup>६१९९३३४८०

## जाहीर नोटीस

सर्व लोकांना हया नोटीसीने कळविण्यात येते की मला मिळालेल्या माहिती नुसार , गाव धोवली, तालुका - वसई , जिल्हा - पालघर येथील जमीन सी.टी.एस. क्रमांक १७३०/४, क्षेत्र १६६.३० चौ. मीटर, हया जिमनीचे श्री. किरण लक्ष्मण चव्हाण आणि इतर ४ हे मालक आहेत आणि मालकांचा सदर जिमनीचा विकास करण्याचा मानस आहे आणि त्यासाठी वसई विरार शहर महानगरपालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तरी, हया बाबत कोणत्याही पक्ष/व्यक्ती यांना सदर जिमनीशी संबंधित आक्षेप, दावा, अधिकार, कुळ वहिवाट, दान, वारसा हक्क, असल्यास खालील पत्त्यावर लिखित स्वरुपात स्वाक्षरी पुराव्यासह वृत्तपत्रात ही सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत यावे.जर उपरोक्त आक्षेप नोटीसच्या १४ दिवसांच्या आत नोंदवला गेला नाही तर सदर जिमनीचा विकास हरकत विरहीत आहे किंवा हरकत असल्यास सोडुन दिली आहे असे समजण्यात येईल आणि श्री. किरण लक्ष्मण चव्हाण आणि इतर ४ यांकडे सदर जिमनीचे मालकी आणि हक्क निर्विवाद आहे असे मानले जाईल आणि पक्षकार त्यांचे बांधकाम परवानगी प्राप्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील हयाची नोंद घ्यावी .

श्री . तुषार आर . पाटील, वकील पत्ता : बी/१६, ईश कृपा बिल्डिंग, मुळगाव,तालुका - वसई जिल्हा - पालघर वसई पश्चिम ४०१२०१

## **PUBLIC NOTICE**

MRS. PANNA AJIT KANANI alias PANNABEN AJIT KANANI, owner of 50% share in the Flat No. 502 on the 5th Floor in the building of the society known as Shree Gayatridham Tower Co-operative Housing Society Ltd., situated at CTS No. 5290 to 5320, Village Ghatkopar - Kirol, Derasar Lane, Ghatkopar (East), Mumbai - 400 077, died on 22.02.2007 without making any nomination. Her legal heir **Ms**. DIPTI AJIT KANANI, has made an application for membership and 50% share in the property rights in the said Flat No. 502 & 50% interest in Share Certificate No. 016 for 5 shares of Rs.50/- each numbered from 76 to 80 (both inclusive). The society hereby invites Claims/Objections from the

neirs of the deceased member for the transfer of 50% share and interest of the deceased member in the said flat and capital/ property of the society and the said share certificate within a period of 15 days from the publication of this notice with all necessary documents and proof. If no Claims/Objections are received within the prescribed period as above, the society shall be free to dea n such manner as is provided under the For Shree Gavatridham Towe o-operative Housing Society Ltd

Chairman/Hon. Secretary

### जाहिर सुचना

मी कष्णा वसंत पाटकर . रा. धानजी पाटकर चाळ. खिंडीपाडा दर्गा रोड, खिंडीपाडा म्युनिसिपल मरार्ठ शाळे जवळ, मुलुंड (प.)मुंबई - ४०००८२ असे घोषित करीत आहे की, माझे वडील वसंत दांजी पाटक<sup>,</sup> दिनांक २३/०७/२००८ रोजी मरण पावले. माझे वडील हे महाराष्ट्र शासन वनविभाग, वनक्षेत्र : तुळशी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली येथे वनमजूर या पदावर कार्यरते होते. त्यांच्या पश्चात अनुकंपतत्वा अंतर्गत नोकरी मिळण्यासाठी वारस दाखला हवा आहे त्यांचे वारसांनी दाखला मिळणे कामी मा. तहसीलदा (कुर्ला), मुलुंड येथे अर्ज केला आहे. कै. वसंत दांजी पाँटकर यांना एकूण ०४ वारस आहेत. त्यांची नावे

अ.क्र. वारसांची नावे वय नाते १ सुमन वसंत पाटकर पत्नी ५१ २ विष्णा वसंत पाटकर २९ मुलगा ३ विष्णु वसंत पाटकर २८ मुलगा ४ नंदिनी वसंत पाटकर २१ मुलगी तरी वारस दखल्यासंबंधी कोणाची काही हरक असल्यास १५ दिवसांच्या आत मा. तहसीलदार (कुर्ला), मुलुंड यांचे कार्यालयात लेखी कळवावे. वरील वारसा व्यक्ती व्यतिरिक्त कोणीही वारस नाहीत.

मुलगा यांच्या नावे वारस दाखला देण्यात येईल. दिनांक १३/१२/२०२५ सही/-अर्जदार - कृष्णा वसंत पाटकर पत्ता: धानजी पाटकर चाळ, खिंडीपाडा दर्गा रोड, खिंडीपाडा म्युनिसिपल मराठी शाळेजवळ, मुलुंड (प.)मुंबई - ४०००८२

१५ दिवसानंतर कार्यालयात आल्यास आपले नांवे ग्राह्य

धरण्यात येणार नाही असे समजून कृष्णा वसंत पाटक

### जाहिर सूचना

आधार कार्ड नं. ८१३९ ५०९४ १२१५ राहणार पवई पोलीस स्टेशन जवळ, मनू भाई चाळ, वांदिवली गाव, गांधीग्राम रोड, पोस्ट साकिनाका - ४०००७२. याद्वारे पुरविलेल्या मुंबई, महाराष्ट्र पत्रांच्या <sup>°</sup>आधारे व सांगितलेल्या माहितीच्य आधारे मी आपणास जाहीर नोटीस देऊन सचित करतो की. सर्वसामान्य जनतेला कळविण्यात येते की माझा कायमस्वरूपी निवासस्थान पत्ताः पवर्ड् पोलीस स्टेशन जवळ, मनू भाई चाळ, चांदिवली गाव, गांधीग्राम रोड, पोस्ट साकिनाका, मुंबई, महाराष्ट्रं - ४०००७२ माझे जन्मस्थान पवई पोलीस स्टेशन जवळ, रूम नंबर ४९, मनू भाई चाळ, वांदिवली गाव, गांधीग्राम रोड, पोस्ट साकिनाका,मुंबई महाराष - ४०००७२ दिनांक २४/०९/१९९७५ रोर्ज माझा जन्म झाला आणि जन्माची नोंद संबंधित बीएमसी एल वॉर्ड मध्ये करण्यात आली नव्हती आणि कायदेशी आदेशानुसार ती नोंद तहसीलदार (कुर्ला), मुलंड तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार जन्म नोंदणीबाबत कोणाल काही आक्षेप असल्यास, १५ दिवसांच्या आत तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी (कुर्ला), गुतुंड यांच्यासमोर लेखी आक्षेप घेऊन माझ्या विर्धानास आणावेत, अन्यथा कायदेशीर प्रक्रियेनुसार

मी मोहम्मद् युसुफ जिलानी शेख वय ५० वर्षे,

योग्य आदेश दिला जाईल उपरोक्त जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात यावी ही नम्र विनंती. देनांक १३/१२/२०२५ अर्जदार- मोहम्मद युसुफ जिलानी शेख राहणार पवई पोलीस स्टेशन जवळ, मनू भाई चाळ, चांदिवली गाव, गांधीग्राम रोड पोस्ट साकिनाका, मुंबई ४०००७

#### महाराष्ट्र शासन

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई भंडारी बँक इमारत, २रा माळा, प. ल. काळे गुरुजी मार्ग, दादर (प), मुंबई - ४०००२८ दुरध्वनी क्रमाक : ०२२ - २४३६६५४१ email id- ddrmumbai@gmail.com

जा.क्र.मुंबई/जिउनि. ४/दत्तसेवा सहकारी पतपेढी लि./वा. कि./४८९३/२०२५ दिनांक: - १९/१२ / २०२५

### वाजवी किंमत प्रस्ताव क्र. ०९/२०२५

दत्तसेवा सहकारी पतपेढी लि., मुंबई या पतसंस्थेने कर्जदारांच्या थकबाकीपोटी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे नेयम १०१ अन्वये मिळविलेल्या वसूली प्रमाणपत्राचे आधारे कार्यवाही केल्यानतर जप्त केलेल्या मालमत्तेंची वाजवी किंमत निश्चित करुन मिळणेबाबतचा प्रस्ताव या कार्योलयात दाखल केलेला असून त्या अनुषंगाने कर्जदार / जामिनदार यांना सुनावणी नोटीस पाठवून या कार्यालयात दि. २४/११/२०२५ व ०८/१२/२०२५ रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती. सदर सुनावणीवेळी कर्जदार / जामिनदार गैरहजर होते. सुनावणी नोटीस पोस्टाचे शेऱ्यासह परत आल्याने/सुनावणी नोटीस संबधितांना लागु झालेबाबत पोहोच अप्राप्त असल्याने , त्याना जाहिर सुनावणी नोटीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पतसस्थेने जप्त केलेल्या मालमत्तेचा तपशील खालीलप्रमाणे :-

अ.		मालमत्ताधार काचे नांव	सदनिका क्र. व क्षेत्रफळ	शासनमान्य म	दुय्यम निबंधक याचे रेडी रेकनर		
क्र		वगव साव	व वात्रफळ	बाजार किंमतीनुसार मूल्यांकन	त्रास मूल्यांकन	शासकीय दरानुसार मूल्यांकन	नुसार मूल्यांकन
٩	२	3	8	4	Ę	U	L
٩	प्लॅट नं. बी- १५, दिहसर अपार्टमेंट, सी. एच. रोड दिहसर पेट्रोल पंप जवळ, दिहसर (पु), मुंबई- ४०००६८	श्री. विकी योगेश वर्मा	४१९.२५ चौ. फुट (कारपेट)	ξ <sub>2</sub> ,00,000/-	५२,७०,०००/-	४२,५७,८७०/-	४२,५७,८७०/-
-							

तेव्हा या जाहिर नोटीसी अन्वये सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते की, सदर प्रकरणी म्हणणे मांडण्यासाठी संबंधितांनी **दि. २२/१२/२०२५** रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था (४), मुंबई. भंडारी बँक भवन, २ रा माळा, प्र. ल. काळेगुरुजी मार्ग दादर (प), मुंबई- २८ या कार्यालयात **दु. ३.०० वाजता** समक्ष हजर राहावे. आपण सदर दिवशी व वेळी हजर न राहिल्यास अथवा आपले लेखी/तोंडी म्हणणे सादर न केल्यास आपले काही म्हणणे नाही असे समजून पतसंस्थेच्या मागणीप्रमाणे वाजवी किंमत निश्चित करण्यात येईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील याची नोंद घ्यावी.



Signed by Rajesh Kalidasrao Loveka Date: 11-12-2025 17:56:12 जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई

### महाराष्ट्र शासन

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई भंडारी बँक इमारत, २रा माळा, प्र. ल. काळे गुरुजी मार्ग, दादरे (प), मुंबई - ४०००२*८* दुरध्वनी क्रमाक : ०२२ - २४३६६५४१ email id- ddrmumbai@gmail.com

जा.क्र.मुंबई/जिउनि. ४ / दत्तसेवा सहकारी पतपेढी लि./वा. कि./४८९४/२०२५ दिनांकः - ११/१२/२०२५

## वाजवी किंमत प्रस्ताव क्र. १०/२०२५

दत्तसेवा सहकारी पतपेढी लि., मुंबई या पतसंस्थेने कर्जदारांच्या थकबाकीपोटी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे नियम १०१ अन्वये मिळविलेल्या वसुली प्रमाणपत्राचे आधारे कार्यवाही केल्यानंतर जप्त केलेल्या मालमत्तेंची वाजवी किंमत निश्चित करुन मिळणेबाबतचा प्रस्ताव या कार्योलयात दाखल केलेला असून त्या अनुषंगाने कर्जदार / जामिनदार यांना सुनावणी नोटीस पाठवून या कार्यालयात दि. २४/११/२०२५ व ०८/१२/२०२५ रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती. सदर सुनावणीवेळी कर्जदार / जामिनदार गैरहजर होते. सुनावणी नोटीस पोस्टाचे शेऱ्यासह परत आल्याने/सुनावणी नोटीस संबंधितानाँ लागु झालेबाबत पोहोच अप्राप्त असल्याने, त्यानाँ जाहिर सुनावणी नोटीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाँ पतसस्थेने जप्त केलेल्या मालमत्तेचा तपशील खालीलप्रमाणेः

अ. क्र	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्ताधार काचे नाव	सदनिका क्र. व क्षेत्रफळ	शासनमान्य म्	दुय्यम निबंधक याचे रेडी रेकनर		
SP		चराच गाच		बाजार किंमतीनुसार मूल्यांकन	त्रास मूल्यांकन	शासकीय दरानुसार मूल्यांकन	नुसार मूल्यांकन
٩	२	3	8	4	Ę	U	٤
٩	प्लॅट नं. बी- १४. दहिसर अपार्टमेंट, सी. एच. रोड दहिसर पेट्रोल पंप जवळ, दहिसर (पू), मुंबई- ४०००६८	श्रीम. रितु विनीत मेनन	४१९.२५ चौ. फुट (कारपेट)	ξ <b>૨,</b> οο,οοο/-	५२,७०,०००/-	४२,५७,८७०/-	४२,५७,८७०/-

तेव्हा या जाहिर नोटीसी अन्वये सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते की, सदर प्रकरणी म्हणणे मांडण्यासाठी संबंधितांनी वि. २२/१२/२०२५ रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था (४), मुंबई. भंडारी बँक भवन, २ रा माळा, प्र. ल. काळेगुरुजी मार्ग, दादर (प), मुंबई- २८ या कार्यालयात **दु. ३.०० वाजता** समक्ष हजर राहावे. आपण सदर दिवशी व वेळी हजर न राहिल्यास अथवा आपले लेखी/तों डी म्हणणे सादर न केल्यास आपले काही म्हणणे नाही असे समजून पतसंस्थेच्या मागणीप्रमाणे वाजवी किंमत निश्चित करण्यात येईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील याची नोंद घ्यावी.



Signed by Rajesh Kalidasrao Lovekar Date: 11-12-2025 17:56:12 जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था (४), मुंबई

## महाराष्ट शासन

कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सा.बां.) विभाग, यांचे कार्यालय Email :- integratedmumbai.ce@mahapwd.com दुरध्वनी क्र. २२०१६९७४ फॅक्स क्र. २२०१६९७६ ई-निविदा सुचना क्र. ७१ सन २०२५-२६

कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सा.बां) विभाग, फोर्ट, मुंबई-०१ (दूरध्वनी क्र. २२०१६९७४/७६) महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून योग्य त्या वर्गातील नोंदणीकृत अंतर्गत सजावट कंत्राटदारांकडून खालील कामाकरीता 'ब-१' नमुन्यातील निविदा ई-निविदा प्रणालीव्दारे (ऑनलाईन) निविदा मार्गावत आहेत. निविदा कागदपत्र शासनाच्या संकेतस्थळावर http://mahatenders.gov.in येथून डाऊनलोड करण्यांत यावी. तसेच निवदा स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सा.बां) विभाग, फोर्ट, मुंबई, यांनी राखून ठेवला आहे. अट असलेली निविदा स्विकारली जाणार नाही.

अ.	कामाचे नाव	अंदाजित
क्र.		रक्कम रुपये
१	सर जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटलच्या कंपाऊंड, मुंबई येथील जुन्या वसतिगृह इमारतीतील महिला	<b>९९९३६४७-</b> /
	डॉक्टर विद्यार्थिनींसाठी खोली क्रमांक 1 ते 20 आणि 21 ते 40 मध्ये बेड, कपाट, टेबल आणि	
	खुर्च्या पुरवणे आणि दुरुस्त करणे.	
२	मुंबईतील सर जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटलच्या कंपाऊंडमधील जुन्या वसतिगृह इमारतीतील महिला	8998909/-
1 1	डॉक्टर विद्यार्थिनींसाठी खोली क्रमांक 41 ते 60 मध्ये बेड, कपाट, टेबल आणि खुर्ची पुरवणे	
	आणि दुरुस्त करणे.	
₹	मुंबईतील सर जे.जे. हॉस्पिटल कंपाऊंड येथील पॅथॉलॉजी स्कूल इमारतीतील पॅथॉलॉजी	१६०५१६५/-
	विभागाच्या सेमिनार हॉलचे अपग्रेडेशन आणि नूतनीकरण.	
8	मुंबईतील सर जे.जे. हॉस्पिटल कंपाऊंड येथील सी.जे. बिल्डिंगमधील पहिल्या मजल्यावरील	-\ <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>
	सी.जे. नेत्ररोगशास्त्र ओ.टी. विभागाचे अपग्रेडेशन आणि नूतनीकरण.	
4	मुंबईतील सर जे.जे. हॉस्पिटल कंपाऊंड येथील नेत्रपेढी इमारतीतील बी-विंगचे अपग्रेडेशन आणि	९१०९१३०/-
	नूतनीकरण.	
ξ	मुंबईतील सर जे.जे. हॉस्पिटल कंपाऊंडमधील वॉर्ड क्रमांक 27 पुरुष आणि महिला वॉर्डमधील	८४९३९२४/-
	अ आणि ब-विंगचे अपग्रेडेशन आणि नूतनीकरण.	
9	मुंबईतील सर जे.जे. हॉस्पिटल कंपाऊंड येथील आय बँक हॉस्पिटल इमारतीतील ऑप्था लायब्ररी	३६४९४१०/-
	आणि असोसिएट प्रोफेसर केबिनचे अपग्रेडेशन आणि नूतनीकरण.	


(एकूण ०७ कामे)

ई-निविदा उपलब्ध कालावधी दिनांक १२/१२/२०२५ सकाळी १०.३० पासून ते दिनांक १९/१२/२०२५ रोजी १५.००

दिनांक २२/१२/२०२५ रोजी १५.०५ वाजता

खालील संकेतस्थळावरुन ई-निविदाची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. (सदर निविदेसूचनेमध्ये काही बदल होत असल्यास वरील वेब साईटवरती कळविण्यात येईल.) ३. कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सा.बां) विभाग, फोर्ट, मुंबई कार्यालयातील सूचना फलक.

जा.क्र.एघ(सा.बां.)/निविदा/ **१७**६६ कार्यकारी अभियंता यांचे कार्याल एकात्मिकृत घटक (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. दिनांक : 99/92/२०२५



आरओसी-२०२४-२६/क्र-४/सी४४७

only	PUBLIC NOTICE  Notice is hereby given that Folio No. SIS0006613, 820 Shares of FV Rs. 2/- (Rupees Two only) each bearing								
Sr. No.	Name of the Shareholder/s	Folio No.	Distinctive Number/s	No. of Shares					
1	Shrinivas Damodar Pandit (Deceased) and	SIS0006613	4507971-4508380	410					
1.	Anjali Shrinivas Pandit (Deceased)	SIS0006613	172018359 - 172018768	410					

Of Siemens Ltd., having its registered office at Birla Aurora, Level 21, Plot No. 1080, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai, Maharashtra, 400030 registered in the name of Shrinivas Damodar Pandit (Deceased) and Anjali Shrinivas Pandit (Deceased) have been lost. **Nitin Shrinivas Pandit** has applied to the company for issuing duplicate certificate. An person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such clair with the company within 15 days of the publication of this notice.

## PUBLIC NOTICE HINDUSTAN UNILEVER LIMITED Registered Office: Unilever House, B. D. Sawant Marg, Chakala, Andheri (E), Mumbai – 400099.

Notice is hereby given that the share certificate(s) of the Company mentioned below has have been lost/mislaid, and the undersigned applicant(s) have applied for issuance of duplicate certificate(s).

duplicate Certificate(s). Any person having a claim in respect of the said securities may lodge their claim with the Company at its Registered Office, or with the RTA, K Fin Technologies Ltd., Selenium Tower B, Plot 31–32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad – 500032, within one nonth from the date of publication.

Failing this, the Company will issue duplicate share certificate(s) without further notice.								
Company	Share holder	Folio No.	Certificate	Distinctive	Number			
			Numbers	Numbers	of share			
Hindustan	Pran Nath	HII3020087	5311960	1326668141	21240			
Unilever Ltd.	Khanna			to 1326689380	f.v.rs.1			
Hindustan	Sushila Devi	HII2915878	5250736	1140221051 to	6360			
Unilever Ltd.	Khanna			1140227410	f.v.rs.1/			
Hindustan	Narinder Nath	HII2915877	5371081	1140219091 to	340			
Unilever Ltd.	Khanna			1140219430	f.v.rs.1			
Place: Mumbai					Sd			

#### NOTICE JSW STEEL LIMITED

Date: 13/12/2025

Registered Office: JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-40005 NOTICE is hereby given that the share certificate(s) for the under mentioned securities of the company has/have been lost /mislaid and the undersigned Claimant/applicant(s) has/have applied to the company, to issue duplicate certificate(s). The said shares are transferred to IEPF Authority.

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such clain with the Company at its registered office, OR to our RTA, K Fin technologies Ltd. Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial district, Hyderabad- 500032, within 15 days from this date of publication, else the company will proceed to issue of duplicate ertificates(s) without further intimation

mare continuated(o) without farther marination.								
Company	Share holder	Folio No.	Certificate	Distinctive	No of			
			Numbers	Numbers	shares			
JSW Steel Limited	Jag Mohan Sagar	JSW0713826	2691756	2415367441 to	8000			
	_			2415375440				
JSW Steel Limited	Jag Mohan Sagar	JSW0713827	2691757	2415375441 to	1000			
	_			2415376440				
JSW Steel Limited	Jag Mohan Sagar	JSW0713826	2691758	2415376441 to	1000			
				2415377440				
Date: 13-12-2025 Place: Mumbai Name(s) of holder(s) / Applicant(s): Jag Mohan Sagar								

जाहीर नोटीस

साईिकरण रवुला (१४२२०४०१००३४ क्राउन बारकोड क्रमांक ४००३०४४७८६) यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांची एक फाईल अल्टम क्रेडो होम फायनान्स प्रा. लि.च्या खात्याशी संबंधित आहे. लि. ची चुकीची नोंद करण्यात आली आहे आणि ती, गहाळ माहितीची नोंद करण्यात आली आहे. रांजणगाव, एमआयडीसी पोलीस स्टेशन, पुणे, तालुका आणि जिल्हा पुणे येथे क्राउन वर्ल्डवाइड प्रायव्हेट लिमिटेडचे श्री सुरेंद्र सिंग यांच्याकडून २०२५ चा ३५४ सी-३, एमआयडीसी तळोजा, रायगड जिल्हा, नवीमुंबई ४१०२०८ किंवा शुभम वेअर हाऊसिंग गेट नंबर ३०७, गांव ३०७, नागारे, ३०८ , ३०८, रायगडँ जिल्हा, नवी मुंबई येथे कार्यालयाचा पत्ता आहे. तालुका- शिरूर, जिल्हा

पुणे, ४१२२२, महाराष्ट्र, भारत. कोणत्याही योगायोगाने सदर कागदपत्रे कोणाच्या ताब्यात असल्यास कृपया ॲड. आयशा एस. अन्सारी यांचा कार्यालय क्रमांक १२०, पहिला मजला, भूमि मॉल, प्लॉटनं. ०९, सेक्टर-१५, पाम बीच रोड, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४, महाराष्ट्र, भारत येथे कार्यालयांचा पत्ता आहे, तसेच ते क्राउ नवर्तुडवाइड प्रायव्हेट लिमिटेड यांना त्यांच्या कार्यालयाच्या पत्त्यावर, राविआडीसी, मुंबई जिल्हा, ता. ४१०२०८ किंवा मेसर्स श्रभम वेअर हाऊसिंग गॅटक्र. ३०७ आणि ३०८, पुणे नगर महामार्ग, गाव-कारेगाव, तालुका- शिरूर, जिल्हा-पुणे, ४१२२२०, महाराष्ट्र, भारत किंवा राजणगाव येथे, एमआयडीसी पोलिस स्टेशन, पुणे, तालुका आणि जिल्हा पुणे श्री सुरेंद्र प्रितेद सिंग, श्री सुरेंद्र सिंग वर्ल्ड प्रिटेट सिंग यांनी दिनांकः १३ डिसेंबर २०२५

**ॲड. आयेशा एस. अन्सारी** (विकेली मुंबई उच्च न्यायालय) (क्राऊन वर्ल्डवाइड प्रायव्हेट लिमिटेडसाठी)

## झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई (सक्षम प्राधिकारी-१) एच.डि.आय.एल. बिल्डिंग. ३रा मजला, अनंत काणेकर मार्ग, वांद्रे (पर्व), मंबई - ४०००५

संकेतस्थळ : www.sra.gov.in ई-मेल : compuath1@sra.gov.in क्र.सप्रा-१/टे-१-प्र/कावि-४६३८/२५ दिनांक : ०९/१२/२०२५

## जाहीर सुचना

१) सुमित्रा प्रकाश शेट्टी, झो.क्र. ३४८ सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर, ए.जी. खान रोड, वरळी डेअरी, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८

२) रमिला प्रकाश पटेल, मुं.झो.धा सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर, ए.जी. खान रोड, वरळी डेअरी, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८

३) राजेंद्र रामचंद्र बडेकर, ३२/७/६४ मुभेदार रामजी आंबेडकर नगर, ए.जी. खान रोड, वरळी डेअरी, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८

विषय: सुनावणीस हजर राहणेबाबत... संदर्भ : १) सुमित्रा प्रकाश शेट्टी यांचेकडील अर्ज दि.३०/१२/२०२४

२) या कार्यालयाचे सुनावणीचे पत्र

क्र.सप्रा.१/टे-१-प्र.कावि - ४२८८/२५ दि.१७/१०/२०२५ ३) या कार्यालयाचे सुनावणीचे पत्र क्र. सप्रा.१/टे-१-प्र.कावि - ४४०९/२५ दि. २२/१०/२०२५

उपरोक्त संदर्भाचे जोडपत्र/अर्ज अनुषंगाने मा.सक्षम अधिकारी १ यांचेकडे सुनावणी आयोजित केली असून प्रकरणी सुनावणीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

सनावणीचा वार व दिनांक : मंगळवार, दिनांक : १६/१२/२०२५ : दपारी ०४.०० वाजता सुनवणीची वेळ

ः एचडीआयएल टॉवर, ३रा मजला, अनंत काणेकर मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.

उपरोक्त स्नावणीस उपस्थित राहून आपण संबंधीत कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे दाखल करावे. अन्यथा प्रकरणी नियमानूसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. सही/-(मा. सक्षम अधिकारी यांचे मान्यतेने) सहायक महसूल अधिकारी

सक्षम अधिकारी - 9 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण



PRAN NATH KHANNA

## ALLCARGO TERMINALS LIMITED

Allcargo Terminals Limited was incorporated on February 05, 2019 in the State of Maharashtra and was converted into public limited w.e.f. January 10, 2022 and consequently a fresh certificate of incorporation was issued to our Company by Registrar of Companies, Mumbai. The shares of our Company got listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India ("NSE") with effect from August 10, 2023 pursuant to scheme of demerger and arrangement ("Scheme") between Allcargo Logistics Limited, Allcargo Terminals Limited and TransIndia Realty & Logistics Parks Limited and its respective shareholders. For details of changes in the registered office of our Company, see 'General Information' beginning on page 2 of the Letter of Offer

Registered Office and Corporate Office: 4h Floor, A Wing, Allcargo House, CST Road, Kalina, Santacruz East, Vidyanagari, Mumbai 400098, Maharashtra, India Tel: 022-6679 8110 | Website: www.allcargoterminals.com | Contact Person: Mr Malav Talati (Company Secretary & Compliance Officer), E-mail: investor.relations@allcargoterminals.com | Corporate Identity Number: L60300MH2019PLC32069

### OUR PROMOTERS: MR SHASHI KIRAN JANARDHAN SHETTY, MRS ARATHI SHETTY, MR ADARSH SUDHAKAR HEGDE

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ALLCARGO TERMINALS LIMITED ("OUR COMPANY OR COMPANY") ONLY

ISSUE OF UPTO 3,97,98,999 PARTLY PAID EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 2 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 18/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 80 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 19 (NINETEEN ) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025, (THE "ISSUE").

## BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Allcargo Terminals Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Monday November 24, 2025 and closed on Tuesday, December 09, 2025 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being Wednesday, December 03, 2025. The Company received Bids of 10,236 Applications for 7,45,42,013 Rights Equity Shares and out of which 1,440 Applications for 18,40,090 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications were 8,796 for 7,27,01,923 Rights Equity Shares, representing 182.67% of the Rights Equity Shares offered under the Issue. The Basis of Allotment was finalized on Wednesday, December 10, 2025 by the Company in consultation with the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the issue. The Board of Directors of the Company, through circular resolution dated December 11, 2025, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 3,97,98,999 Partly paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have beer kept in abevance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

Information regarding Applications received (including ASBA applications received)

Catagoni	Applications Received		Equity shares applied for			Equity shares allotted		
Category	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Non Renouncees	10118	98.85	72792798	363963990.00	97.65	38884594	194422970.00	97.70
Renouncees	118	1.15	1749215	8746075.00	2.35	914405	4572025.00	2.30
Total	10236	100.00	74542013	372710065.00	100.00	39798999	198994995.00	100.00
2 Delections								

Equity shares applied for Category Applications received Non-ASBA ASBA 18,40,090 Total 1,440 18,40,090 Basis of Allatments

3. Basis of Allotment:					
Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number	Number	Number	Number	
Non Renouncees	8671	34346456	4538138	38884594	
Renouncees	118	914405	0	914405	
Total	8789	35260861	4538138	39798999	

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT / REFUND / REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the vestors who have provided their email address, have been sent on their email address on December 12, 2025. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on December 10, 2025. The Listing application was filled with BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) on December 11, 2025 and the Listing approval was received on December 12, 2025. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees were completed on December 12, 2025, by NSDL and CDSL. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on Page 84 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading approval. The trading is expected to commence on or about December 15, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/31 dated March 11, 2025, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL and CDSL on December 12, 2025 and the same is under process of extinguishment.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that submission of Letter of offer of SEBI should not in any way deemed or construed that letter of offer has been

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors area advised to refer to page 56 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited". DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: "it is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been

of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of NSE". THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to page 57 of the Letter



Date: December 13, 2025

REGISTRAR TO THE ISSUE

MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited)
C 101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra. Tel: +91 810 811 4949

Email: all cargo.rights 2025@in.mpms.mufg.comWebsite: www.mpms.mufg.com Contact Person: Ms Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration No. INR000004058

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue/Post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/first holder, Folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form or the plain paper application as the case may be, was submitted by the investor along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, please see the section titled "Terms of the issue" on page 59 of the LOF.

For Allcargo Terminals Limited On behalf of the Board of Directors

Malav Talati

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai Note: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of the Stoci Exchange where the Equity Shares are listed ie. BSE at www.bseindia.com and the website of the company at www.allcargoterminals.com.